

CORDS CABLE INDUSTRIES LTD.

REGD. OFFICE: 94, 1st Floor, Shambhu Dayal Bagh Marg, Near Okhla Industrial Area Phase-III, Old Ishwar Nagar, New Delhi - 110020

Tel: +91-11-40551200; Fax: +91-11-20887232

Website: www.cordscable.com; Email: ccil@cordscable.com

CIN: L74999DL1991PLC046092

Date: 24.03.2025

Listing Department (Compliance Cell), National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, Plot no. C/1, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai- 400 051

Scrip Code: CORDSCABLE

Listing Department (Compliance Cell),

Bombay Stock Exchange Ltd.

Floor 25, PJ Towers,

Dalal Street.

Mumbai- 400 001

Scrip Code: 532941

Sub.: SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015 - Closure of Trading Window.

Dear Sir,

Pursuant to the provisions of SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulation, 2015, as amended, please find enclosed herewith copy of newspaper publication regarding intimation of closure of trading window from Tuesday, 1st April, 2025 till 48 hours after the declaration of Audited Financial Results along with Auditors Report for the 4th Quarter/12 months ended on 31st March, 2025 is made public.

This is for your kind information and records.

Thanking you.

Yours faithfully,

FOR CORDS CABLE INDUSTRIES LIMITED

GARIMA PANT Ny Secretary

For Cor

Company Secretary

Works :

(UNIT I): A-525, E-518, 519, 520, Industrial Area Chopanki, Bhiwadi, Distt. Alwar - 301019 (Rajasthan) Tel. No.: +91-7230003177 (UNIT II): SP-239, 240, 241, Industrial Area Kaharani, Bhiwadi, Distt. Alwar - 301019 (Rajasthan) Tel. No.: +91-7230003176

प्रपत्र सं. 3

कॉर्ड्स केबल इंडस्ट्रीज लिमिटेड **CORDS**®

पंजीकृत कार्यालय: 94, पहली मंजिल, शंभु दयाल बाग मार्ग, निकट ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेज-III, पुराना ईश्वर नगर, नई दिल्ली-110020 दूरभाषः 011-40551200 *फैक्सः 011-20887232 *ई-मेलः ccil@cordscable.com वेबसाइटः www.cordscable.com *सीआईएनः L74999DL1991PLC046092

सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग निषेध) विनियम, 2015 और कंपनी के इनसाइडर ट्रेडिंग की रोकथाम के लिए संहिता के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी की प्रतिभृतियों में कारोबार के लिए ट्रेडिंग विंडो मंगलवार, 01 अप्रैल, 2025 से निदेशकों, नामित कर्मचारियों, इनसाइडरों और उनके निकटतम रिश्तेदारों के लिए 31 मार्च, 2025 को समाप्त चौथी तिमाही/12 महीनों के लिए अंकेक्षित वित्तीय परिणाम और ऑडिटर्स की रिपोर्ट सार्वजनिक हो जाने के 48 घंटे बाद तक बंद रहेगी

तदनुसार, सभी नामित व्यक्ति, निदेशक, प्रमोटर, संयुक्त रूप से कार्य करने वाले व्यक्ति, कंपनी के कर्मचारी और उनके निकटतम रिश्तेदार, कंपनी के साथ संविदात्मक और विश्वस्त संबंध रखने वाले व्यक्ति, जिनमें ऑडिटर, लेखा फर्म, कानून फर्म, विश्लेषक, सलाहकार आदि शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं , जो कंपनी को सहायता या सलाह दे रहे हैं, वे ट्रेडिंग विंडो बंद होने की अवधि के दौरान कंपनी के प्रतिभूतियों में किसी भी लेनदेन/व्यापार में शामिल नहीं होंगे।

> निदेशक मंडल के आदेश से कॉर्ड्स केबल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लिए हस्ताक्षर/-

स्थान:नई दिल्ली दिनांक: 22 मार्च, 2025

गरिमा पंत कंपनी सचिव

प्रपत्र सं. 3 [विनियम-13 (1)(ए) देखें]

ऋण वसूली अधिकरण चंडीगढ़ (डीआरटी 2) प्रथम तल, एससीओ नं. 33–34–35 सेक्टर–17 ए, चंडीगढ़ (तृतीय एवं चतुर्थ तल पर भी अतिरिक्त स्थल आबंटित किया गया है)

प्रकरण सं. : ओए / 1506 / 2024 ऋण वसूली अधिकरण (प्रक्रिया) नियमावली 1999 के नियम 5 के उप—नियम (2ए) के साथ पठित अधिनियम की धारा 19 की उप–धारा (4) के अंतर्गत न्यायालयी आदेश (समन्स)।

एक्स. नं.: 25276 यस बैंक

सुखविंदर सिंह

(1) सुखविंदर सिंह

डी / डब्ल्यू / एस / ओ— सुखवंत सिंह

सुखविंदर सिंह पुत्र सुखवंत सिंह निवासी कल्याणपुर अटारी 170 काली माता मंदिर यमुना नगर— | 133204 हरियाणा। (2) अमनदीप कौर पत्नी सुखविंदर सिंह निवासी कल्याणपुर अटारी 170 काली माता मंदिर यमुना नगर— 133204

न्यायालयी आदेश (समन्स)

जबिक, ओए / 1506 / 2024, दिनांक 30 / 01 / 2025 को माननीय पीठासीन अधिकारी / रजिस्ट्रार के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था।

जबिक, यह माननीय अधिकरण रु. 34,99,370.99/— के ऋणों की वसूली हेतु आपके विरुद्ध दर्ज

अधिनियम की धारा 19(4) के अंतर्गत उक्त आवेदन, (ओए) पर न्यायालयी आदेश अर्थात् समन्स / सूचना निर्गत करके संतुष्ट है (आवेदन, प्रलेखों इत्यादि की प्रतियों के साथ संलग्न है)। अधिनियम की धारा 19 की उप–धारा (4) के अनुसार, आप अर्थात् प्रतिवादियों को निम्नानुसार

(1) न्यायालयी आदेश अर्थात् समन्स प्रसारित होने के तीस दिवसों के अंदर हमें कारण बताएं दिखाएं कि जिस राहत हेतू प्रार्थना की गई है, उसे स्वीकृत क्यों नहीं किया जाना चाहिए; (2) आवेदक द्वारा मूल आवेदन–पत्र के क्रमांक 3ए के अंतर्गत विनिर्दिष्ट की गई संपत्तियों एवं परिसंपत्तियों के अतिरिक्त अन्य संपत्तियों अथवा परिसंपत्तियों के विवरण प्रकट करनाः

(3) आपको, संपत्तियों की कुर्की के लिए आवेदन की सुनवाई और निस्तारण के लंबित रहने तक, मुल आवेदन-पत्र के क्रमांक 3ए के तहत प्रकट की गई प्रतिभृत परिसंपत्तियों या ऐसी अन्य परिसंपत्तियों और संपत्तियों का लेन-देन करने या निस्तारण करने से प्रतिबंधित किया जाता है; (4) आप, अधिकरण के पूर्व अनुमोदन के बिना, अपने व्यवसाय के सामान्य कार्यक्रम के अलावा, किसी भी ऐसी परिसंपत्ति, जिस पर प्रतिभृति हित सुजित किया गया है उसको और / या मूल आवेदन—पत्र के क्रमांक 3ए के अंतर्गत विनिर्दिष्ट या प्रकट की गई अन्य परिसंपत्तियों एवं

(5) आप व्यवसाय के सामान्य कार्यक्रम के तहत प्रतिभृत परिसंपत्तियों या अन्य परिसंपत्तियों और संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त बिक्री–आय के लिए उत्तरदायी होंगे और ऐसी बिक्री–आय को, ऐसी परिसंपत्तियों पर प्रतिभृति हित धारण करनेवाले बैंक या वित्तीय संस्थानों के पास अनुरक्षित खाते

संपत्तियों को बिक्री, पट्टे के माध्यम से या अन्यथा हस्तांतरित नहीं करेंगे;

आपको, लिखित विवरण, आवेदक को इसकी एक प्रति प्रेषित करने के दायित्व निर्वहन के साथ, प्रस्तुत करने और 21-04-2025 को प्रातः 10:30 बजे रिजस्ट्रार के समक्ष उपस्थित होने का भी निर्देश दिया जाता है। ऐसा न करने पर आवेदन पर सुनवाई की जाएगी और आपकी अनुपस्थिति में

आज दिनाँक : 07 / 02 / 2025 को मेरे हस्ताक्षर और इस अधिकरण की मुद्रा के अंतर्गत निर्गत। ऋण वसूली अधिकरण—।।, चंडीगढ़

> प्रपत्र सं. 3 [विनियम—13 (1)(ए) देखें] ऋण वसूली अधिकरण चंडीगढ़ (डीआरटी 2) प्रथम तल, एससीओ नं. 33—34—35 सेक्टर—17 ए, चंडीगढ़

(तृतीय एवं चतुर्थ तल पर भी अतिरिक्त स्थल आबंटित किया गया है) प्रकरण सं. : ओए / 1371

ऋण वसूली अधिकरण (प्रक्रिया) नियमावली 1999 के नियम 5 के उप—नियम (2ए) के साथ पठित अधिनियम की धारा 19 की उप—धारा (4) के अंतर्गत न्यायालयी आदेश (समन्स) एक्स. नं.: 25530

यस बैंक

दर्शना दर्शना

(1) दर्शना दर्शना

डी/डब्ल्यू/एस/ओ— राज कुमार दर्शना पत्नी श्री राज कुमार निवासी मकान नं. 1, ग्राम (पी.ओ.) कली रवन, 36, तहसील अदमपुर, जनपद हिसार, हरियाणा— 125052, हिसार, हरियाणा

पुत्र श्री राज कुमार, निवासी मकान सं. 1, ग्राम (पी.ओ.) कली रवन (36) तहसील अदमपुर, हिसार,

न्यायालयी आदेश (समन्स) जबिक, ओए/1371, दिनांक 27/02/2025 को माननीय पीठासीन अधिकारी / रजिस्ट्रार के समक्ष

जबिक, यह माननीय अधिकरण रु. 22,31,185.44 / – के ऋणों की वसूली हेतु आपके विरुद्ध दर्ज अधिनियम की धारा 19(4) के अंतर्गत उक्त आवेदन, (ओए) पर न्यायालयी आदेश अर्थात् समन्स / सूचना निर्गत करके संतुष्ट है (आवेदन, प्रलेखों इत्यादि की प्रतियों के साथ संलग्न है)।

अधिनियम की धारा 19 की उप–धारा (4) के अनुसार, आप अर्थात प्रतिवादियों को निम्नानुसार (1) न्यायालयी आदेश अर्थात् समन्स प्रसारित होने के तीस दिवसों के अंदर हमें कारण बताएं

दिखाएं कि जिस राहत हेतू प्रार्थना की गई है, उसे स्वीकृत क्यों नहीं किया जाना चाहिए; (2) आवेदक द्वारा मूल आवेदन-पत्र के क्रमांक 3ए के अंतर्गत विनिर्दिष्ट की गई संपत्तियों एवं परिसंपत्तियों के अतिरिक्त अन्य संपत्तियों अथवा परिसंपत्तियों के विवरण प्रकट करना;

(3) आपको, संपत्तियों की कुर्की के लिए आवेदन की सुनवाई और निस्तारण के लंबित रहने तक मूल आवेदन-पत्र के क्रमांक 3ए के तहत प्रकट की गई प्रतिभूत परिसंपत्तियों या ऐसी अन्य परिसंपत्तियों और संपत्तियों का लेन-देन करने या निस्तारण करने से प्रतिबंधित किया जाता है; (4) आप, अधिकरण के पूर्व अनुमोदन के बिना, अपने व्यवसाय के सामान्य कार्यक्रम के अलावा किसी भी ऐसी परिसंपत्ति, जिस पर प्रतिभूति हित सुजित किया गया है उसको और / या मूल आवेदन-पत्र के क्रमांक 3ए के अंतर्गत विनिर्दिष्ट या प्रकट की गईं अन्य परिसंपत्तियों एवं संपत्तियों को बिक्री, पट्टे के माध्यम से या अन्यथा हस्तांतरित नहीं करेंगे;

(5) आप व्यवसाय के सामान्य कार्यक्रम के तहत प्रतिभूत परिसंपत्तियों या अन्य परिसंपत्तियों और संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त बिक्री-आय के लिए उत्तरदायी होंगे और ऐसी बिक्री-आय को, ऐसी परिसंपत्तियों पर प्रतिभित हित धारण करनेवाले बैंक या वित्तीय संस्थानों के पास अनुरक्षित खाते में जमा करेंगे।

आपको, लिखित विवरण, आवेदक को इसकी एक प्रति प्रेषित करने के दायित्व निर्वहन के साथ प्रस्तृत करने और 14-05-2025 को प्रातः 10:30 बजे रजिस्ट्रार के समक्ष उपस्थित होने का भी निर्देश दिया जाता है। ऐसा न करने पर आवेदन पर सुनवाई की जाएगी और आपकी अनुपस्थिति

आज दिनाँक : 03/03/2025 को मेरे हस्ताक्षर और इस अधिकरण की मुद्रा के अंतर्गत निर्गत। ऋण वसूली अधिकरण-।।, चंडीगढ़

दिनांकः 23.03..2025 स्थानः दिल्ली

यूनियन बैंक 😈 Union Bank



दबावग्रस्त आस्ति प्रबंधन शाखा-मुंबई

ग्राउंड फ्लोर, 104, भारत हाउस, एम.एस. मार्ग, फोर्ट, मुंबई-400 001. ई-मेलः samvmumbai@unionbankofindia.bank

अचल/चल संपत्ति/आईईएस की बिक्री के लिए बिक्री सूचना प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6)/नियम 9(1)/नियम 6 (2) के

प्रावधान के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल/चल आस्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना। आम जनता तथा विशेष रूप से कर्जदार(रों) एवं गारंटरों को सूचित किया जाता है कि

प्रतिभूति ऋणदाता के पास बंधक/प्रभारित/दृष्टिबंधक नीचे वर्णित अचल/चल सम्पत्तियां, जिनका कब्जा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (प्रतिभूत लेनदार) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है, दिनांक 25.04.2025 को 12:00 बजे अपराह्न से 05:00 बजे अपराह्न तक ''जहां है जैसे है, ''जो यह यही है'' तथा ''जो कुछ भी है वहीं है'' के आधार पर बेची जाएंगी, ताकि संबंधित कर्जदार(रों) एवं गारंटरों से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (प्रतिभूत ऋणदाता) को देय नीचे उल्लिखित संबंधित राशि की वसूली की जा सके। आरक्षित मूल्य तथा जमा धरोहर राशि भी नीचे उल्लिखित है:

> नीलामी की तिथि एवं समय: 25.04.2025, 12:00 बजे अपराह्न से 05:00 बजे अपराह्न तक

1. मेसर्स एएए कॉर्प एक्सिम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड 2. श्री जोसेफ जॉन परकोट

बकाया राशिः रु. 70,71,63,836.37 (रुपये सत्तर करोड़ इकहत्तर लाख तिरसट हजार आठ सौ छत्तीस और सैंतीस पैसे मात्र) दिनांक 31.08.2024 की मांग सूचना के अनुसार, ब्याज, लागत और व्यय सहित।

संपत्ति संख्या 1:- फ्लैट संख्या 280, तीसरी मंजिल, ब्लॉक एसडी, श्रेणी-II, स्कूटर गैरेज संख्या २०८ (जीएफ पर), टॉवर अपार्टमेंट, पीतमपुरा, दिल्ली-110088, श्री जोसेफ जॉन परकोट के नाम पर (सांकेतिक कब्जे में)

• आरक्षित मूल्यः रु. 1,61,00,000/- • जमा की जाने वाली धरोहर राशिः आरक्षित मूल्य का 10% • बिक्री सूचना की तिथि: 20.03.2025

• बैंक को ज्ञात ऋणभार यदि को हो : शून्य

पर दिए गए लिंक को देखें।

संपत्ति संख्या 2:- फ्लैट संख्या एफ-1001, एफ टॉवर, 10वीं मंजिल, जिसका सुपर निर्मित क्षेत्रफल लगभग 1875 वर्ग फीट है। आवासीय परिसर जिसे ''जेएमडी गार्डन'' के नाम से जाना जाता है, में 11.079 एकड़ भूमि के टुकड़े पर निर्मित खसरा संख्या 310/6, 298/2, 309/1, 309/2/1, 331/2, 330/2, 308/2, 311 और 312, 301/1, 323/2 और 325, 301/एस, 322/एस और 324, 229, 322/1 और 323/1, 310/5 शामिल है, जो गांव इस्लामपुर, तहसील और जिला गुड़गांव, हरियाणा में स्थित है, श्री जोसेफ जॉन पैराकोट के नाम पर (सांकेतिक कब्जे में) • बैंक को ज्ञात कोई भी ऋणभार: शुन्य

• आरक्षित मूल्यः 1,77,00,000/- • जमा की जाने वाली धरोहर राशिः आरक्षित मूल्य का 10% • बिक्री सूचना की तिथि: 20.03.2025

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें: (कार्यालय समय के दौरान):- फाइल हैंडलिंग अधिकारी और प्राधिकृत अधिकारी- श्री धुरंधर राम - 7800003631

> संपत्ति/यों के लिए ई-नीलामी की तिथि और समय 25.04.2025 दोपहर 12.00 बजे से शाम 0<u>5.00</u> बजे <u>तक</u>

बिक्री की विस्तृत शर्तों और नियमों के लिए, कृपया https://www.unionbankofindia.co.in तथा https://baanknet.com

ऑनलाइन ई-नीलामी https://baanknet.com के माध्यम से ऊपर उल्लिखित दिनांक और समय पर 10 मिनट के असीमित विस्तार के साथ आयोजित की जाएगी।

प्राधिकृत अधिकारी, युनियन बैंक ऑफ इंडिया |स्थान: मुंबई

ADITYA BIRLA PUBLIC NOTICE

आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय : इंडियन रेयान कंपाउंड, वेरावल, गुजरात- 362266

1. डायनेमिक ट्रल्स एंड टेक्नोलॉजीज, प्रोप्राइटरशिप कंसर्न, अपने प्रोपराइटर के माध्यम से जिसका पता सी-98, भगत सिंह कॉलोनी, आरटीओ ऑफिस के पास, भिवाडी, राजस्थान- 301019 के पते पर स्थित है। **अन्य पता यहाँ पर भी**ः मकान नंबर 2161, एमआईजी हाउसिंग कॉलोनी, सेक्टर 28, फरीदाबाद, हरियाणा— 121001 (उधारकर्ता) . **श्री मनीष कुमार पांडे,** निवासी विला नंबर आरजी—12(200), कॉसमॉस ग्रीन, अलवर बाईपास

रोड, जेनेसिस मॉल के सामने, भिवाड़ी, राजस्थान— 301019, अन्य पता यहाँ पर भी: मकान नंबर 2161, एमआईजी हाउसिंग कॉलोनी, सेक्टर 28, फरीदाबाद, हरियाणा— 121001 **3. सुश्री हरिबंश कुमारी पांडे,** निवासी— एम— 25, आर.डी.ए. विस्तार, इंदिरा नगर, राय बरेली, उत्तर प्रदेश— 229001, अन्य पता यहाँ पर भी: मकान नंबर 2161, एमआईजी हाउसिंग कॉलोनी,

सेक्टर 28, फरीदाबाद, हरियाणा— 121001 (सह—उधारकर्तागण) **इतके ध्यानार्थ :** डायनेमिक टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज, श्री मनीष कुमार पांडे और सुश्री हरिबंश कुमारी पांडे, विषय: धोखाधड़ी की गतिविधि के लिए कारण बताओ सूचना

संदर्भ : ऋण खाता संख्या : HCFDL3TER00001001109 श्रीमान, 1. यह सूचना आप, ऊपर नामित पते वालों को, आपके द्वारा **आदित्य बिड्ला फाइनेंस लिमिटेड** (एबीएफएल) से लिए गए संपत्ति पर ऋण, जिसका ऋण खाता संख्या HCFDL3TER00001001109

है, के संदर्भ में जारी किया जाता है। पुष्ठभमि 2. कि आप, ऊपर नामित पते वालों ने अपने ऊपर उल्लिखित पते के साथ, हमारे साथ डायरेक्ट सोर्सिंग एजेंट – एसआर फाइनेंशियल्स लिमिटेड के माध्यम से संपत्ति पर ऋण के लिए आवेदन किया था और तदनुसार रु. 1,43,00,000 / – की राशि का ऋण आपको 21.10.2021 को एबीएफएल और आप, पते वालों के बीच 21.10.2021 को निष्पादित सुविधा समझौते के तहत अधिक विशेष रूप से सहमत नियमों और शर्तों पर 144 मासिक किस्तों में भूगतान किए जानेवाले ब्याज के साथ स्वीकृत किया गया था। 3. उक्त ऋण को सूरक्षित करने के लिए आपने निम्नलिखित संपत्ति में एबीएफएल के पक्ष में सुरक्षा हित बनाया था; "मकान नं. 2161, टाइप–एमआईजी, सेक्टर–28, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, फरीदाबाद, जिला फरीदाबाद, क्षेत्रफल 200 वर्ग गज, तथा कुल कवर्ड एरिया 1000 वर्ग फीट" शिकायतकर्ता, 4. जब आपके खाते के आधार पर चूक के बारे में आवश्यक पूछताछ की जा रही थी, तो आप उधारकर्ताओं का पता नहीं चल पाया था और उसके बाद यह पता चला कि आप सह-उधारकर्ता संपत्ति विवाद के वारंट के तहत जेल में बंद हैं, जहाँ रश्मि डोगरा (पत्नी नरेंद्र डोगरा) नाम की एक अन्य पार्टी भी ऋण प्राप्त करने के समय एबीएफएल को गिरवी रखी गई संपत्ति के पूर्ण स्वामी होने का दावा कर रही है। विसंगतियों के आधार पर आपके मामले को सुरक्षित संपत्ति से संबंधित संभावित विसंगति का हवाला देते हुए आंतरिक जांच के लिए भेजा गया था। जांच और निष्कर्ष, 5. उपर्युक्त शिकायत प्राप्त होने पर, हमने मामले में एक विस्तृत आंतरिक जोखिम मूल्यांकन जांच की। उसी के अनुसार यह देखा गया है कि आप, पते वालों ने बेमेल हस्ताक्षर जैसी विसंगतियों वाले जाली संपत्ति दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं, और एबीएफएल से ऋण प्राप्त करने के लिए सुरक्षित संपत्ति के स्वामित्व से संबंधित भ्रामक जानकारी प्रदान की है। 6. उपर्युक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि आपने जानबुझकर गलत और झूठे दस्तावेज प्रस्तूत किए थे। यह स्पष्ट है कि आपने जानबूझकर और पूरी जानकारी के साथ दुर्भावनापूर्ण इरादे से अपने निजी लाभ के लिए ऋण सुविधा को मंजुरी देने और वितरित करने के लिए एबीएफएल को धोखा दिया है। 7. इस तरह की गतिविधियाँ जानकारी को गलत तरीके से प्रस्तुत करने और भ्रामक जानकारी प्रस्तुत करने के बराबर हैं और न केवल आपके द्वारा निष्पादित मानक नियमों और शर्तों में उल्लिखित नियमों और शर्तों का उल्लंघन करती हैं, बल्कि वित्तीय लेनदेन के संबंध में लागू कानुनों और नियमों का भी संभावित रूप से उल्लंघन करती हैं। 8. एक उधारकर्ता के रूप में, आपको कानुनी और विनियामक मानकों का पालन करना आवश्यक है। झूठे दस्तावेज प्रस्तुत करने से ये मानक कमज़ोर हो जाते हैं और लागू कानून/नियामक दिशा-निर्देशों के तहत गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते ै हैं। 9. हमारी नीतियों और आरबीआई द्वारा अ–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) में धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन पर मास्टर निर्देशों के तहत निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार, दिनांक 15.07.2024 को (हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों सहित) संख्या आरबीआई / डीओएस / 2024–25 / 120 डीओएस. सीओ. एफएमजी. एसईसी. नं. 7/23.04.001/2024—25 वाला, आपको एक विस्तृत लिखित स्पष्टीकरण प्रदान करने के लिए कहा जाता है या आप व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हो सकते हैं और इस सुचना की प्राप्ति की तिथि से 21 दिनों के भीतर ऊपर उल्लिखित विसंगतियों के बारे में अपना स्पष्टीकरण दे सकते हैं, साथ ही अपने उत्तर को सही ठहराने के लिए सहायक दस्तावेज भी ला सकते हैं। 10. निर्धारित समय सीमा के भीतर इस नोटिस का जवाब न देने पर हम यह मान लेंगे कि आपके पास कोई वैध स्पष्टीकरण नहीं है, और हम आपके विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू करेंगे, जिसमें कानून प्रवर्तन अधिकारियों के समक्ष औपचारिक शिकायत दर्ज करना भी शामिल है, परंतु यह उस तक ही सीमित नहीं है। 11. हम आपको सलाह देते हैं कि किसी भी कानूनी परिणाम से बचने के लिए इस मामले पर अत्यंत गंभीरता और तत्परता से विचार करें।

प्राधिकत हस्ताक्षरकर्ता, कते आदित्य बिडला फाइनेंस लिमिटेड

[विनियम—13 (1)(ए) देखें] ऋण वसूली अधिकरण चंडीगढ़ (डीआरटी 2) प्रथम तल, एससीओ नं. 33–34–35 सेक्टर–17 ए, चंडीगढ़ (तृतीय एवं चतुर्थ तल पर भी अतिरिक्त स्थल आबंटित किया गया है)

प्रकरण सं. : ओए/4/2025 ऋण वसूली अधिकरण (प्रक्रिया) नियमावली 1999 के नियम 5 के उप—नियम (2ए) के साथ पठित अधिनियम की धारा 19 की उप–धारा (4) के अंतर्गत न्यायालयी आदेश (समन्स)

यस बैंक

जीडी इन्फ्रा सोल्यूशन जैन

(1) प्रतिवादी सं. 1- जीडी इन्फ्रा सोल्यूशन, अपने भागीदारों के माध्यम से कार्यालय : द्वितीय तल, एलडीपीएस बिल्डिंग, बादशाहपुर रोड के समीप, गुड़गाँव, हरियाणा– 122101 (पैन नं. एएवीएफजी914टीपी) साझीदारी फर्म / उधारकर्ता

(2) प्रतिवादी सं. 2— विपुल जैन पुत्र लाल चंद जैन साझीदार जीडी इन्फ्रा सोल्यूशन निवासी मकान नं. 188, प्रथम तल, साउथ सिटी–।, गुड़गाँव, हरियाणा— 122001 (साझीदार / उधारकर्ता)

(2) प्रतिवादी सं. 4— संतोष कुमार पुत्र तिलसवर नाथ शुक्ला निवासी 117, संत रविदास नगर, उत्तर प्रदेश— 221310 (साझीदार / उधारकर्ता)

न्यायालयी आदेश (समन्स) जबिक, ओए/4/2025, दिनांक 24/02/2025 को माननीय पीठासीन अधिकारी / रजिस्ट्रार के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था।

जबिक, यह माननीय अधिकरण रु. 41,67,047 / – के ऋणों की वसूली हेतु आपके विरुद्ध दर्ज अधिनियम की धारा 19(4) के अंतर्गत उक्त आवेदन, (ओए) पर न्यायालयी आदेश अर्थात् समन्स 🖊 सूचना निर्गत करके संतुष्ट है (आवेदन, प्रलेखों इत्यादि की प्रतियों के साथ संलग्न है)। अधिनियम की धारा 19 की उप–धारा (4) के अनुसार, आप अर्थात् प्रतिवादियों को निम्नानुसार

(1) न्यायालयी आदेश अर्थात् समन्स प्रसारित होने के तीस दिवसों के अंदर हमें कारण बताएं / दिखाएं कि जिस राहत हेतु प्रार्थना की गई है, उसे स्वीकृत क्यों नहीं किया जाना चाहिए; (2) आवेदक द्वारा मूल आवेदन-पत्र के क्रमांक 3ए के अंतर्गत विनिर्दिष्ट की गई संपत्तियों एवं

परिसंपित्तयों के अतिरिक्त अन्य संपित्तयों अथवा परिसंपित्तयों के विवरण प्रकट करना; (3) आपको, संपत्तियों की कुर्की के लिए आवेदन की सुनवाई और निस्तारण के लंबित रहने तक, मूल आवेदन-पत्र के क्रमांक 3ए के तहत प्रकट की गई प्रतिभूत परिसंपत्तियों या ऐसी अन्य परिसंपत्तियों और संपत्तियों का लेन-देन करने या निस्तारण करने से प्रतिबंधित किया जाता है; (4) आप, अधिकरण के पूर्व अनुमोदन के बिना, अपने व्यवसाय के सामान्य कार्यक्रम के अलावा, किसी भी ऐसी परिसंपत्ति, जिस पर प्रतिभूति हित सृजित किया गया है उसको और / या मूल

आवेदन-पत्र के क्रमांक 3ए के अंतर्गत विनिर्दिष्ट या प्रकट की गईं अन्य परिसंपत्तियों एवं संपत्तियों को बिक्री, पट्टे के माध्यम से या अन्यथा हस्तांतरित नहीं करेंगे; (5) आप व्यवसाय के सामान्य कार्यक्रम के तहत प्रतिभूत परिसंपत्तियों या अन्य परिसंपत्तियों और संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त बिक्री-आय के लिए उत्तरदायी होंगे और ऐसी बिक्री-आय को, ऐसी परिसंपत्तियों पर प्रतिभूति हित धारण करनेवाले बैंक या वित्तीय संस्थानों के पास अनुरक्षित

आपको, लिखित विवरण, आवेदक को इसकी एक प्रति प्रेषित करने के दायित्व निर्वहन के साथ, प्रस्तुत करने और 07-05-2025 को प्रातः 10:30 बजे रजिस्ट्रार के समक्ष उपस्थित होने का भी निर्देश दिया जाता है। ऐसा न करने पर आवेदन पर सुनवाई की जाएगी और आपकी अनुपस्थिति

आज दिनाँक : 15/03/2025 को मेरे हस्ताक्षर और इस अधिकरण की मुद्रा के अंतर्गत निर्गत। ऋण वसूली अधिकरण-।।, चंडीगढ़



हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिभिटेड निगमित कार्यालय : नं. 167-169, द्वितीय तल, अन्ना सलाई, सैदापेट,

ग्राखा कार्यालय : एफ8, प्रथम तल, महालक्ष्मी मेट्रो टॉवर, सेक्टर 4, वैशाली, गाजियाबाद, 201019 सीएलएम - ध्रुव वशिष्ठ - मोबाइल नंबर 8802967651 साँकेतिक कब्जा सूचना

के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (2002 की सं. 3) के अंतर्गत और प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, निम्न तालिका में प्रत्येक खाता के समक्ष अंकित तथा यहाँ इसमें इसके उपराँत उल्लिखित तिथियों पर ऋणकर्ताओं को (यहां इसमें इसके उपरांत ऋणकर्ता तथा गारंटरों को सामहिक रूप में ''ऋणकर्ता'' के रूप में संदर्भित किया जाता है) एक माँग सूचना निर्गत की थी, जिसमें उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों के अंदर निर्धारित चुँकि ऋणकर्तागण निर्धारित बकाया राशि का प्रतिभृगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतदद्वारा ऋणकर्ताओं

को एवं जनसाधारण को सचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यहाँ इसमें निम्न विवरणित संपत्ति का प्रतिभित हित प्रवर्तन नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, प्रत्येक खाता के समक्ष अंकित तिथियों पर, कब्जा कर लिया है। ऋणकर्ता 🖊 गारंटर को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को एतददारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है वि संपत्ति का लेन–देन न करें तथा संपत्ति का कोई व किसी भी प्रकार का लेन–देन, एक निर्धारित बकाया राशि तथा

राशि पर आकस्मिक व्ययों, लागतों, शुल्कों, इत्यादि के साथ उपर्युक्त राशि पर संविदागत दर पर भावी ब्याज हेतु हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्रभाराधीन होगा।

ऋणकर्ता का ध्यान, प्रतिभूत परिसंपत्तियों को ऋण से मुक्त करने के लिये उपलब्ध समय के परिप्रेक्ष्य में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है। माँग सूचना तिथि लैन नं. / ऋणकर्ताओं /गारंटरों के नाम कब्जा की तिथि 03-04-2024 চ. 13.27.014 ∕ ∙ राखी गिरिराज सिंह, दोनों का पता : मकान नंबर— 227 03-04-2024 17-03-2025

नसीरपुर अशोक नगर के पास गाजियाबाद डासना धीट

ग्रामीण गाजियाबाद उत्तर प्रदेश भारत 201001

18-06-2024 रु. 22,05,877 / -केसर लखन वर्मा दोनों का पता : फ्लैट नं एसएफ–6 18-06-2024 17-03-2025 के अनुसार साथ द्वितीय तल प्लॉट नंबर जी–68 सदरपुर केशव कुंज साँकेतिक राशि पर ब्याज गाजियाबाद, केशव कुंज, नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, अचल संपत्ति के विवरण : संपूर्ण तल, तृतीय तल, खसरा नं.—1047, जी—33, जी—ब्लॉक, महेंद्र एन्क्लेव, ग्राम— राजापुर गाजियाबाद, राजापुर, विजय कॉलेज ऑफ एजुकेशन, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, 201002

চ. 15,34,311 ∕ 17-08-2024 **DL/NCU/GHAU/A000000473.** श्री सदीप 17-08-2024 17-03-2025 के अनुसार साथ गली नं. 3 संतपुरा मोदी नगर साँकेतिक राशि पर ब्याज **अचल संपत्ति के विवरण :** खसरा नंबर— 558 और 559एम ग्राम कादराबादमारूफ मोहल्ला अनेकांत डेवलपर (सच्चा धार परगना जलालाबाद तहसील मोदी नगर गाजियाबाद उत्तर प्रदेश 201204 DL/NCU/GHAU/A000001931, श्री विपिन शर्मा, 18-06-2024 रु. 11,21,928 ∕

श्रीमती दिमेश कुमारी, दोनों का पता : कृष्णा कुंज कॉलोनी 18-06-2024 17-03-2025 अनसार साथ रवि बैंकेट हॉल के पास तिबडा रोड मोदीनगर उत्तर प्रदेश साँकेतिक राशि पर ब्याज अचल संपत्ति के विवरण : फ्रीहोल्ड आवासीय मकान जिसका क्षेत्रफल 45.15 वर्ग मीटर है, जो खसरा संख्या 467 के अंतर आता है, जो मोहल्ला इंद्रपुरी, ग्राम सीकरी खुर्द परगना जलालाबाद, तहसील मोदी नगर, जिला गाजियाबाद. उत्तर प्रदेश में स्थित है। **DL/MNR/MVHR/A000000058,** श्री कुलदीप 17-08-2024 रु. 29.91.711 / ∙ चौधरी. श्रीमती नीरज, दोनों का पता : मकान नं.– डी 686 17-03-2025 17-08-2024 के अनुसार साथ इंद्रप्रस्थ आवास योजना टीला शाहबाजपुर लोनी मेट्रो

साँकेतिक राशि पर ब्याज गाजियाबाद उत्तर प्रदेश भारत 201001 अचल संपत्ति के विवरण : द्वितीय तल, सामने की ओर, डी 366 इंद्रप्रस्थ योजना गाजियाबाद मेट्रो गाजियाबाद उत्तर प्रदे DL/MNR/HPUR/A000000055 20-08-2024 ਓ. 11.75.159 / CO/CPC/CPOF/A000001585, श्री संजय संजय 20-08-2024 17-03-2025 के अनुसार साथ श्री सनेश दोनों का पता : गली नंबर ८ विश्वकर्मा साँकेतिक

राशि पर ब्याज कॉलोनी, मोदी नगर नगर मोदी नगर उत्तर प्रदेश— 201204 अचल संपत्ति के विवरण : खसरा नंबर 450 ग्राम सिखरी खुर्द मारुफ मोहल्ला विश्वकर्मा बस्ती मोदीनगर उत्तर प्रदेश 18-06-2024 CO/CPC/CPCO/A000000236, श्री किशोर कुमार, श्री 20-08-2024 17-03-2025 अनुसार साथ रविता रानी, घ्घ्दोनों का पता : मकान नंबर 149 स्टीट नंबर राशि पर ब्याज 03 पार्क भूपेन्द्रपुरी के पास, मोदीनगर, मेट्रो, मोदीनगर,

उत्तर प्रदेश, भारत — 201204 अचल संपत्ति के विवरण: फ्रीहोल्ड आवासीय नगर निगम मकान नं. 565 क्षेत्र माप 100 वर्ग गज या कहें 83.61 वर्ग (कु कवर्ड एरिया माप 107.763 वर्ग मीटर) खसरा नंबर 1704 / 1 से संबंधित गली में स्थित है 18-09-2024

18-09-2024 राधा सचिन दोनों का पता : गली नंबर–6 संतपरा 17-03-2025 अनसार साथ गोविंदपुरी मोदीनगर मेट्रो उत्तर प्रदेश भारत 201204 राशि पर ब्याज अचल संपत्ति के विवरण : ततीय तल पर निर्मित फ्लैट संख्या टीई-प छताधिकारों के बिना क्षेत्रफल 75 वर्ग गज, खस संख्या 554 मिन. में समाहित, राजबाला एन्क्लेव ग्राम फफराना परगना जलालाबाद तहसील मोदी नगर जनपद गाजियाब

रु. 8,14,056 ∕ -12-09-2024 GZ/MNR/MNIR/A00000031, श्री राहुल कुमार, श्री 12-09-2024 गुड्डी, दोनों का पता : 136 मानवतापुरी गोविंदपुरी मोदीनगर 17-03-2025 के अनुसार साथ में साँकेतिक राशि पर ब्याज अचल संपत्ति के विवरण : खसरा नंबर 62 के अंतर्गत आनेवाली मनोज कॉलोनी सारा रोड गोविंदपरी ग्राम बिसोखर परग जलालाबाद तहसील मोदीनगर जनपद गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है।

10 DL/DLS/DLSD/A000000225, सरबजीत सिंह दविंदर 25-03-2024 कौर. दोनों का पता : आर. नं.– एफएफ–2 प्लॉट नंबर–33 20-03-2025 के अनुसार साथ राधा कृष्ण एन्क्लेव इंदर गढ़ी डासना गाजियाबाद उत्तर राशि पर ब्याज अचल संपत्ति के विवरण : फ्लैट संख्या एफ.एफ.-2, प्रथम तल छताधिकारों के बिना, सुपर कवर्ड एरिया 66.88 वर्ग मीटर

11. DL/KRB/KRB/A00000151, सुखपाल सिंह, सुमंत्रा, চ. 11,23,826 ∕ 25-09-2023 मकान संख्या–162 घूकना सुभाष नगर गाजियाबाद उत्तर 20-03-2025

25-09-2023 के अनुसार साथ साँकेतिक राशि पर ब्याज अचल संपत्ति के विवरण : फ्री होल्ड आवासीय प्लॉट भूमि क्षेत्र 39 वर्ग गज अर्थात् 32.608 मीटर खसरा संख्या–1086 रे से, आवासीय कॉलोनी जिसे सुभाष नगर के नाम से जाना जाता है, जो गांव सिहानी परगना लोनी, तहसील और जिला

दिनाँक : 23-03-2025 स्थान : गाजियाबाद

गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में स्थित है।

प्राधिकृत अधिकारी, हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के

पंजीकृत कार्यालयः ६वीं मंजिल, बी बिल्डिंग, गंगा टूनो, लोहेगांव, पूणे, महाराष्ट्र ४११०१४ बांच ऑफ यूनिटः द्वितीय मंजिल, फ्रेंड्स प्लाजा, एम-52/53, ईरवर नगर, नई दिल्ली - 110065

ई-नीलामी बिक्री सचना) (सरफेसी अधिनियम के तहत सुरक्षित अचल संपत्ति की बिक्री

वेत्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (''अधिनियम'') के अंतर्गत अचल आस्तियों की बिक्री के लिए ई—नीलामी बिक्री सूचना, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 और 9 के साथ पठित। एतद्दवारा आम जनता को तथा विशेष रूप से ऋणी / सह—ऋणी / बंधककर्ता / गारंटर की सूचित किया जाता है कि गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड हो गया है, जो 17 नवंबर 2023 से प्रभावी है (पूर्व में मैग्मा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नाम से जाना जाता था तथा मल रूप से जीई मनी हाउसिंग फाइनेंस पब्लिक अनलिमिटेड कंपनी के नाम से निगमित है) (जिसे अधिनियम के अनसार ''सरक्षित ऋणदाता'' के रूप में संदर्भित किया गया है) को बंधक रखी गई नीचे वर्णित अचल संपत्तियां, जिसका कब्जा सुरक्षित ऋणदाता के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम के नियम 8 और 9 के साथ अधिनियम की धारा 13(2) के तहत नोटिस के अनुसरण में लिया गया है। सरक्षित संपत्तियां ई-नीलामी के माध्यम से 09 / 04 / 2025 को 'जैसा है जहां है', 'जैसा है जो है' और 'जो कुछ है' के आधार पर बेची जाएंगी। इसके द्वारा आम जनता को सचित किया जाता है कि हम वेबसाइटः https://www.bankeauctions.com पर उपलब्ध ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से सार्वजनिक नीलामी करने जा रहे हैं। बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया जीएचएफएल/सिक्योर्ड क्रेडिटर की वेबसाइट यानी www. grihumhousing.com पर दिए गए लिंक को देखें।

क्रं सं.	प्रस्ताव संख्या ग्राहक का नाम {ए}	मांग सूचना दिनांक और बकाया राशि {बी}	कब्जे की प्रकृति (सी)	संपत्ति का विवरण {डी}	आरक्षित मूल्य (ई)	ईएमडी (आरपी का 10 प्रतिषत) {एफ}	करने की	बोली	संपत्ति निरीक्षण दिनांक एवं समय {I}	नीलामी की तारीख और समय (जे)	बाधाएँ / न्यायालय मामले, यदि कोई ज्ञात हों
1	ऋण संख्या HL00659100000005032980 1.मोहम्मद मंसूर 2. रुखसाना खातून 3. मैमुन निशा	नोटिस की तारीखः 07/11/2024 कुल बकायाः रु.659410/— (छह लाख उनसठ हजार चार सौ दस रुपये मात्र) 07/11/2024 तक देय साथ ही वसूली तक 13.00ः प्रति वर्ष ब्याज।	भौतिक	आवासीय प्लॉट संख्या ई—486 का वह पूरा हिस्सा, जिसका क्षेत्रफल 50 वर्ग गज, यानी 41.80 वर्ग मीटर, खसरा संख्या 10 में से, आवासीय कॉलोनी, गांव हकीकतपुर उर्फ खुदाबास, परगना और तहसील लोनी, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश (जिसे आगे उक्त संपत्ति कहा जाएगा) में स्थित है। निष्पादित बिक्री विलेख में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। सीमाएं:पूर्वः प्लॉट संख्या ई—485, पश्चिमः प्लॉट संख्या ई—487 उत्तरः रास्ता 20 फीट, निकहत परवीन का दक्षिण प्लॉट, क्षेत्रफलः — 50 वर्ग गज।	रू. 5,50,000 / — (पांच लाख पचास हजार रुपये मात्र)	रु. 55000 / – (पचपन हजार रुपये मात्र)	28/03/2025 शाम 5 बजे से पहले		25 / 03 / 2025 (सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक)	(सुबह 11	्तो (के} शून्य
				हा दौरा करें, और अपनी जांच करें और अतिरिक्त शुल्क, ऋणभार और वि हो, का पता लगाया जाना चाहिए और सफल बोलीदाता द्वारा भुगतान कि		हितों का पता लगा	।एं और बोली ज	मा करने से	पहले सभी पहलुअं	। ों में खुद को संत्	नुष्ट करें। संपत्ति

इच्छुक बोलीदाताओं को पोर्टल पर स्वयं को पंजीकृत करना आवश्यक है और नीलामी सेवा प्रदाता) सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से लॉगिन आईडी और पासवर्ड पहले ही प्राप्त कर लेना चाहिए, जो ई—बोली के लिए अनिवार्य है। पता— प्लॉट नंबर—68 तीसरी मंजिल गुड़गांव हरियाणा—122003। हेल्पलाइन नंबर— 7291981124,25,26 सपोर्ट ईमेल आईडी . Support@bankeauctions.com, संपर्क व्यक्ति –धरनी पी, ईमेल आईडी— dharani.p@c1india.com संपर्क नंबर— 9948182222। कृपया ध्यान दें कि संभावित बोलीदाता केवल उनसे ही ई—नीलामी पर ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। इच्छक क्रेता / बोलीदाता को "गहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड", बैंक-आईसीआई बैंक लिमिटेड के खाते में एनईएफटी / आरटीजीएस / डीडी के माध्यम से बयाना राशि जमा (ईएमडी) जेमा करनी होगी। खाता संख्या—000651000460 और IFSC कोड- ICIC0000006, 20, आर. एन. मखर्जी रोड- कोलकाता-700001 किसी भी राष्ट्रीयकृत या अनुसूचित बैंक में 28/03/2025 को या उससे पहले खींचे और अपना नाम https://www.bankeauctions.com पर पंजीकृत करें और मुफ्त में उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड प्राप्त करें और सेवा प्रदाता से ई-नीलामी पर प्रशिक्षण प्राप्त करें। वेबसाइट पर उनके पंजीकरण के बाद, इच्छुक क्रेता / बोलीदाता को निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रतियां अपलोड करने, ई—मेल करने और स्व—सत्यापित हार्ड कॉपी को पते पर भेजने की आवश्यकता होती है: द्वितीय तल, फ्रेंड्स प्लाजा, एम—52/53, ईश्वर नगर, नई दिल्ली — 110065 मोबाइल नंबर +91 9657443073 ई—मेल आईडी rohan.savala@grihumhousing.com. नियम व शर्तों के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया ई—नीलामी में भाग लेने के लिए https://www.bankeauctions.com और www.grihumhousing.com पर जाएं। इस नोटिस को सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम-2002 के नियम 8(6) के अंतर्गत उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/बंधककर्ता/गारंटर को दिया गया 15 दिन का नोटिस भी माना जाना चाहिए।

हस्ता/-प्राधिकृत अधिकारी गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, (पूर्व में पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)

[विनियम—13 (1)(ए) देखें] ऋण वसूली अधिकरण चंडीगढ़ (डीआरटी 2) प्रथम तल, एससीओ नं. 33–34–35 सेक्टर–17 ए, चंडीगढ़

एक्स. नं: 25613

(तृतीय एवं चतुर्थ तल पर भी अतिरिक्त स्थल आबंटित किया गया है) प्रकरण सं : ओए / 1457 / 2024 ऋण वसूली अधिकरण (प्रक्रिया) नियमावली 1999 के नियम 5 के उप—नियम (2ए) के साथ पठित

> यस बैंक विरुद्ध मनोज मनोज

प्रतिवादी सं. 2— इंदु पत्नी मनोज

निवासी ग्राम : गवालीसन, आउटर केनाल ऑफ वाटर के समीप, झज्जर, हरियाणा— 124103 न्यायालयी आदेश (समन्स) जबिक, ओए / 1457 / 2024, दिनांक 20 / 02 / 2025 को माननीय पीठासीन अधिकारी / रिजस्ट्रार

अधिनियम की धारा 19 की उप–धारा (४) के अंतर्गत न्यायालयी आदेश (समन्स)।

के समक्ष सुचीबद्ध किया गया था। जबिक, यह माननीय अधिकरण रु. 32,03,446.19 / – के ऋणों की वसूली हेत् आपके विरुद्ध दर्ज अधिनियम की धारा 19(4) के अंतर्गत उक्त आवेदन, (ओए) पर न्यायालयी आदेश अर्थात् समन्स /

सूचना निर्गत करके संतुष्ट है (आवेदन, प्रलेखों इत्यादि की प्रतियों के साथ संलग्न है)। अधिनियम की धारा 19 की उप–धारा (4) के अनुसार, आप अर्थात् प्रतिवादियों को निम्नानुसार

(1) न्यायालयी आदेश अर्थात् समन्स प्रसारित होने के तीस दिवसों के अंदर हमें कारण बताएं / दिखाएं कि जिस राहत हेतु प्रार्थना की गई है, उसे स्वीकृत क्यों नहीं किया जाना चाहिए;

(2) आवेदक द्वारा मूल आवेदन-पत्र के क्रमांक 3ए के अंतर्गत विनिर्दिष्ट की गई संपत्तियों एवं परिसंपत्तियों के अतिरिक्त अन्य संपत्तियों अथवा परिसंपत्तियों के विवरण प्रकट करना; (3) आपको, संपत्तियों की कुर्की के लिए आवेदन की सुनवाई और निस्तारण के लंबित रहने तक,

मूल आवेदन-पत्र के क्रमांक 3ए के तहत प्रकट की गई प्रतिभूत परिसंपत्तियों या ऐसी अन्य परिसंपत्तियों और संपत्तियों का लेन-देन करने या निस्तारण करने से प्रतिबंधित किया जाता है; (4) आप, अधिकरण के पूर्व अनुमोदन के बिना, अपने व्यवसाय के सामान्य कार्यक्रम के अलावा, किसी भी ऐसी परिसंपत्ति, जिस पर प्रतिभूति हित सृजित किया गया है उसको और / या मूल आवेदन-पत्र के क्रमांक 3ए के अंतर्गत विनिर्दिष्ट या प्रकट की गईं अन्य परिसंपत्तियों एवं

संपत्तियों को बिक्री, पट्टे के माध्यम से या अन्यथा हस्तांतरित नहीं करेंगे; (5) आप व्यवसाय के सामान्य कार्यक्रम के तहत प्रतिभूत परिसंपत्तियों या अन्य परिसंपत्तियों और संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त बिक्री-आय के लिए उत्तरदायी होंगे और ऐसी बिक्री-आय को, ऐसी परिसंपत्तियों पर प्रतिभृति हित धारण करनेवाले बैंक या वित्तीय संस्थानों के पास अनुरक्षित

आपको, लिखित विवरण, आवेदक को इसकी एक प्रति प्रेषित करने के दायित्व निर्वहन के साथ, प्रस्तुत करने और 05-05-2025 को प्रातः 10:30 बजे रजिस्ट्रार के समक्ष उपस्थित होने का भी निर्देश दिया जाता है। ऐसा न करने पर आवेदन पर सुनवाई की जाएगी और आपकी अनुपस्थिति में निर्णय ले लिया जायेगा।

आज दिनाँक : 12/03/2025 को मेरे हस्ताक्षर और इस अधिकरण की मुद्रा के अंतर्गत निर्गत। ऋण वसूली अधिकरण-।।, चंडीगढ़

> प्रपत्र सं. 3 [विनियम-13 (1)(ए) देखें]

ऋण वसूली अधिकरण चंडीगढ (डीऑरटी 2) प्रथम तल, एससीओ नं. 33–34–35 सेक्टर–17 ए, चंडीगढ़ (तृतीय एवं चतुर्थ तल पर भी अतिरिक्त स्थल आबंटित किया गया है)

प्रकरण सं. : ओए / 1509 / 2024 ऋण वसूली अधिकरण (प्रक्रिया) नियमावली 1999 के नियम 5 के उप—नियम (2ए) के साथ पठित अधिनियम की धारा 19 की उप—धारा (4) के अंतर्गत न्यायालयी आदेश (समन्स)।

एक्स. नं.: 25281 यस बैंक विरुद्ध अमरपाल सिंह सिंह

अमरपाल सिंह सिंह

डी / डब्ल्यू / एस / ओ— दीवान सिंह अमरपाल सिंह पुत्र दीवान सिंह निवासी कंवारी 30 रोहतक हरियाणा– 125037, रोहतक, हरियाणा न्यायालयी आदेश

जबिक, ओए / 1509 / 2024, दिनांक 30 / 01 / 2025 को माननीय पीठासीन अधिकारी / रिजस्ट्रार

के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था। जबिक, यह माननीय अधिकरण रु. 41,55,978.35/- के ऋणों की वसूली हेतु आपके विरुद्ध दर्ज अधिनियम की धारा 19(4) के अंतर्गत उक्त आवेदन, (ओए) पर न्यायालयी आदेश अर्थात् सूचना निर्गत करके संतुष्ट है (आवेदन, प्रलेखों इत्यादि की प्रतियों के साथ संलग्न है)।

निर्देशित किया जाता है कि :-(1) न्यायालयी आदेश अर्थात् समन्स प्रसारित होने के तीस दिवसों के अंदर हमें कारण बताएं 🗸 दिखाएं कि जिस राहत हेत प्रार्थना की गई है, उसे स्वीकृत क्यों नहीं किया जाना चाहिए:

अधिनियम की धारा 19 की उप–धारा (4) के अनुसार, आप अर्थात प्रतिवादियों को निम्नानुसार

(2) आवेदक द्वारा मूल आवेदन-पत्र के क्रमांक 3ए के अंतर्गत विनिर्दिष्ट की गई संपत्तियों एवं परिसंपत्तियों के अतिरिक्त अन्य संपत्तियों अथवा परिसंपत्तियों के विवरण प्रकट करना; (3) आपको, संपत्तियों की कर्की के लिए आवेदन की सुनवाई और निस्तारण के लंबित रहने तक मुल आवेदन-पत्र के क्रमांक 3ए के तहत प्रकट की गई प्रतिभृत परिसंपत्तियों या ऐसी अन्य

परिसंपत्तियों और संपत्तियों का लेन-देन करने या निस्तारण करने से प्रतिबंधित किया जाता है; (4) आप, अधिकरण के पूर्व अनुमोदन के बिना, अपने व्यवसाय के सामान्य कार्यक्रम के अलावा किसी भी ऐसी परिसंपत्ति, जिस पर प्रतिभूति हित सुजित किया गया है उसको और / या मूल आवेदन-पत्र के क्रमांक 3ए के अंतर्गत विनिर्दिष्ट या प्रकट की गईं अन्य परिसंपत्तियों एवं संपत्तियों को बिक्री, पट्टे के माध्यम से या अन्यथा हस्तांतरित नहीं करेंगे;

संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त बिक्री-आय के लिए उत्तरदायी होंगे और ऐसी बिक्री-आय को, ऐसी परिसंपत्तियों पर प्रतिभृति हित धारण करनेवाले बैंक या वित्तीय संस्थानों के पास अनुरक्षित खाते में जमा करेंगे। आपको, लिखित विवरण, आवेदक को इसकी एक प्रति प्रेषित करने के दायित्व निर्वहन के साथ, प्रस्तुत करने और 21–04–2025 को प्रातः 10:30 बजे रजिस्ट्रार के समक्ष उपस्थित होने का भी निर्देश दिया जाता है। ऐसा न करने पर आवेदन पर सुनवाई की जाएगी और आपकी अनुपस्थिति

(5) आप व्यवसाय के सामान्य कार्यक्रम के तहत प्रतिभूत परिसंपत्तियों या अन्य परिसंपत्तियों और

आज दिनाँक : 07/02/2025 को मेरे हस्ताक्षर और इस अधिकरण की मुद्रा के अंतर्गत निर्गत। ऋण वस्ती अधिकरण-।।, चंडीगढ

अंचल कार्यालय, बेंगलुरूः नंबर 465 / ए, 22वां क्रॉस, वैंक ऑफ महाराष्ट्र तीसरा ब्लॉक, एनएमकेआरवी कॉलेज फॉर विमेन के सामने Bank of Maharashtra

जयनगर बेंगलूरु - 560011 **टेलीफोनः 080-29509922** ई–ਸੇਲ: cmmarc_ban@mahabank.co.in

एच ओ : लोकमंगल, 1501, शिवाजीनगर, पुणे-5 कब्जा सचना

अचल संपत्ति के लिए [अधिनियम-नियम-8(1) के तहत परिशिष्ट IV]

के अनुसार साथ में

राशि पर ब्याज

रु. 11.50.000 /

साँकेतिक

अधोहस्ताक्षरी वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पूनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत **बैंक ऑफ महाराष्ट्र** के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते, तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 की उपधारा (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 06.01.2025 को एक मांग नोटिस जारी किया है, जिसमें उधारकर्ता मेसर्स सिलेक्स ग्रेनाइट्स प्राइवेट लिमिटेड, # 1297, सेक्टर—18—सी, चंडीगढ़—160 018 तथा गारंटर i) मेसर्स रैकोंटेर ग्रेनाइट लिमिटेड, #1587, सेक्टर-51-बी, चंडीगढ़-160051, ii) मेसर्स सार्थक एंटरप्राइजेज, पार्टनरशिप फर्म, एसवाई नं. .515 / 4, चामराजनगर, कर्नाटक-571313, iii) श्री राजीव रामधन विशष्ठ, हाउस नंबर 129, ट्रिब्यून मित्र विहार, रामगढ़ रोड, सेक्टर-29, पंचकुला, हरियाणा—134116, **iv)** श्रीमती सहारा शर्मा, # 2271, सेक्टर—44सी, चंडीगढ़—160047,, v) श्री गौरव कुमार सी-503, मोना ग्रीन, ऑपोजिट डोमिनोज, वीआईपी रोड, जीरकपुर, एसएएस नगर, मोहाली, पंजाब-140603, vi) श्री सुवीन कांत गुप्ता, # 626, सेक्टर 16डी, चंडीगढ़-160015, vii) श्री स्नील बंसल, # 1770एफ, एफ सेक्टर 18ए, चंडीगढ़-160018 और viii) श्रीमती शालू **रार्मा # 9/1-बी,** 2 फ्लोर, वसंत विहार 1, दक्षिण पश्चिम दिल्ली, दिल्ली—110057 को मांग नोटिस में उल्लिखित कुल राशि रु. 31,30,18,785.00 (इकतीस करोड़ तीस लाख अठारह हजार सात सौ पचासी रुपये मात्र) और उस पर लागू न किया गया ब्याज उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिए कहा गया था। यह नोटिस पंजीकृत एडी पोस्ट के माध्यम

से भेजा गया तथा 17.01.2025 को समाचार पत्र में भी प्रकाशित किया गया था। उधारकर्ता तथा गारंटर / गारंटरों द्वारा राशि वापस करने में असफल रहने के कारण, उधारकर्ता तथा गारंटर / गारंटरों और आम जनता को सूचित किया जाता है कि नीचे हस्ताक्षरकर्ता ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त नियमों के नियम 8 के साथ

पठित, इस 21 मार्च 2025 को नीचे वर्णित संपत्तियों पर कब्जा ले लिया है। उधारकर्ता के साथ–साथ विशेष रूप से गारंटर / गारंटरों और आम जनता को एतद्दवारा संपत्तियों से लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्तियों से कोई भी लेन-देन बैंक ऑफ महाराष्ट्र, चामराजनगर शाखा के प्रभार के अधीन होगा, जो कि ऊपर उल्लिखित राशि के बराबर होगा। उधारकर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, जो कि सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में है। बैंक के पास गिरवी रखी गई और बैंक द्वारा कब्जे में ली गई संपत्तियों का विवरण इस प्रकार है:

i) खदान भूमि का वह टुकड़ा और पार्सल जो नीचे दिया गया है— एसवाई सं एकड़ 28/2 0.39 गांव-होन्नाहल्ली, हरदनहल्ली होबली, जिला-चामराजनगर, राज्य-कर्नाटक में 28/3 0.39 युनिट-। फैक्ट्री भूमि पर विशेष प्रभार। 28/4 0.39 28/5 1.27 29/2 0.15 29/3 2.27 31/1A 1.16 30/1 3.08

संपत्तियां निम्नानुसार बटी हुई और बाउंडेड है-पूर्व की ओर या आगे सर्वेक्षण संख्या 28/2 सर्वेक्षण संख्या 28/3 सर्वेक्षण संख्या 28/4 पश्चिम की ओर या आगे सडक उत्तर की ओर या आगे महादेवप्पा की भि महादेवप्पा की भिम महादेवप्पा की भूमि दक्षिण की ओर या आगे ए श्रीनाथ की भूमि ए श्रीनाथ की भूमि ए श्रीनाथ की भूमि एसवीजी एक्सपोर्ट एसवीजी एक्सपोर्ट एसवीजी एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड सर्वेक्षण संख्या 28/5 सर्वेक्षण संख्या 29/2 सर्वेक्षण संख्या 29/3 पर्व की ओर या आगे सडक सडक पश्चिम की ओर या आगे महादेवप्पा की भूमि महादेवप्पा की भूमि महादेवप्पा की भूमि उत्तर की ओर या आगे ए श्रीनाथ की भूमि ए श्रीनाथ की भूमि ए श्रीनाथ की भूमि दक्षिण की ओर या आगे एसवीजी एक्सपोर्ट एसवीजी एक्सपोर्ट एसवीजी एक्सपोर्ट

प्राइवेट लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड सर्वेक्षण संख्या ३१/१ए सर्वेक्षण संख्या 30/1 पूर्व की ओर या आगे पश्चिम की ओर या आगे महादेवप्पा की भिम महादेवप्पा की भूमि उत्तर की ओर या आगे ए श्रीनाथ की भिम ए श्रीनाथ की भूमि दक्षिण की ओर या आगे एसवीजी एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड एसवीजी एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड

ii) खदान भूमि का वह दुकड़ा और पार्सल जो नीचे दिया गया है-एसवाई सं एकड़ 513/1 0.38 मेसर्स सार्थक एंटरप्राइजेज के नाम पर, ग्राम–कोथलावाडी, जिला–चामराजनगर में

स्थित परिवर्तित खदान के पंजीकृत बंधक के माध्यम से विशेष प्रभार।

हस्ता/- मुख्य प्रबंधक एवं प्राधिकृत अधिकारी दिनांक : 21/03/2025 बैंक ऑफ महाराष्ट्र स्थान : चामराजनगर

बैंगलोर अंचल

514/3 2.14 512/1 1.15

512/4 1.00

511/1 1.30

511/2 1.35

512/3 1.10

www.readwhere.com

FE SUNDAY

JOINT ACTION COMMITTEE ON DELIMITATION

JAC for extending freeze on constituencies by 25 years

Meet an eye on '26 polls as DMK has no achievements: FM

PRESS TRUST OF INDIA Chennai, March 22

ASSERTING THAT THE proposed delimitation exercise based on population would not be "fair" to southern states, the DMK-led Joint Action Committee meeting on Saturday demanded that the Centre should extend the freeze on Parliamentary constituencies, based on the 1971 Census population, by another 25 years and decided to submit a joint representation to Prime Minister Narendra Modi during the ongoing Parliamentary session.

A political consensus also emerged to fight against "population" as the yardstick to determine delimitation and it was resolved during the meeting, which was held to ensure "fair delimitation", not to lose representation for southern states. Politically, the meeting, which was attended by three chief ministers, a deputy CM and leaders of 14 parties including the BRS, BJD and SAD from



Bhagwant Mann, Tamil Nadu CM MK Stalin and Telangana CM Revanth Reddy at a meeting of states over the proposed delimitation of Parliamentary seats, in Chennai on Saturday PT

six states in a show of solidarity on the issue, was a shot in the arm for Chief Minister M K Stalin and his party DMK, ahead of the Assembly election in Tamil Nadu next year.

"The upcoming or future population-based delimitation of constituencies based on the next census will greatly affect a few states. We should all be absolutely sure that delimitation based on the current popu-

lation cannot be accepted," Stalin asserted. He also said a legal option could be explored and favoured setting up an expert panel to draw up the political and legal action plan.

Addressing the meeting, Kerala Chief Minister Pinarayi Vijayan termed the proposed delimitation as a 'sword of Damocles' hanging over the states, especially in southern India, which implemented pro-

tion. He urged the Centre to engage in "meaningful dialogues"before going ahead with the process. Delimitation, if done after the Census, will lead to an increase in seats for northern states and a reduction for southern states."Such a cut in seats for the south and an increase for the north will suit the BJP as it holds greater influence in the north," he claimed. Recently, Union Home Minister Amit Shah had accused Stalin of spreading "misinformation," over the delimitation issue and assured that southern states will not lose a "single Parliamentary seat." Union Finance Minister Nirmala Sitharaman charged the DMK was raising "emotional" issues like alleged Hindi imposition and delimitation as it had nothing to showcase as its own achievements before the people during next year's Assembly polls in Tamil Nadu. The DMK, however, described the meeting as a "historic first," in the annals of independent India, involving 7 states including Tamil Nadu and 14 political parties."DMK President (Stalin) is deciding national politics, the JAC resolution is causing political tremors

grammes to control the popula-

Cash recovery: Delhi HC CJ submits report

PRESS TRUST OF INDIA New Delhi, March 22

DELHI HIGH COURT'S chief justice DK Upadhyaya has submitted a report to Chief Justice of India (CJI) Sanjiv Khanna in connection with the alleged discovery of cash from Justice Yashwant Varma's official residence. Justice Upadhyaya had commenced an in-house enquiry procedure over the incident, collecting evidence and information. He submitted his report to the CJI on Friday

after talking to all the authori-

ties concerned, including the fire department and police.

The apex court collegium will look into the report and may initiate further action.

The purported discovery of a huge stash of cash happened following a fire at Justice Varma's Lutyens' Delhi residence at around 11:35 pm on the night of Holi on March 14, prompting the fire department personnel to rush to the spot and douse the flames. In a statement on Friday, the Supreme Court said the Delhi High Court chief justice had

initiated an in-house inquiry against Justice Varma and separately, there was a proposal to transfer the judge to the Allahabad High Court. "There is misinformation and rumours are being spread with regard to the incident at the residence of Justice Yashwant Varma," the statement said. Upon receiving the information, the apex court said Justice Upadhyaya "commenced the in-house enquiry procedure, collecting evidence and information". Justice Upadhyaya was stated to have commenced the inquiry prior to a

duplicate share certificates

Date: March 22, 2025

or any other relevant financial item(s).

Date: 21.03.2025

meeting of the apex court collegium on March 20. The Supreme Court said the proposal for transferring Justice Varma was examined by the apex court collegium comprising the CJI and the four seniormost judges on March 20 and thereafter, letters were shot off to the consultee judges of the top court and the chief justices of the high courts concerned, besides Justice Varma. "Responses received will be examined and, thereupon, the collegium will pass a resolution," the court said.

in Delhi,"the party said.

activities that undermine financial integrity and national security". NOTICE OF LOSS OF SHARE CERTIFICATES Notice is hereby given that the following share certificates issued by ICICI BANK LTD, are stated to have been lost or misplaced and the registered share holder applied for issue of

1003923	AMOLAK DAS	3633	2107501	2108000	500
	KHANDELWAL	903159	5830029191	5830029241	50
aim with a ower B, pl	who has/have a claim Il supporting docum ot 31-32, Gachibow	ents with the li, financial o	company or Kfin listrict, Hyderab	Technologies Ltd ad-500032. If no	l, Selenium valid and
company wi	laim is received with Il proceed to issue d er claim would be ent	uplicate share	certificates to t	he shareholder li	

Date: 23.03.2025, Place: Jaipur

Ph: +91 94888 10404 JOINT PUBLIC NOTICE

SHOPPING MALL AVAILABLE

FOR SALE IN PERAMBUR, CHENNAI

Spectrum mall - 60% stake [5 screens currently operated by

PVR Cinemas on lease + shopping area] along with two

vacant lands (Pallikaranai & Market Street, Perambur) and

8 residential flats are available for E-auction under IBC, 2016.

E-auction date: 23rd April, 2025

Contact Liquidator for further details:

CA Mahalingam Suresh Kumar / gfpl.liq@gmail.com/

[Ganga Foundations Private Limited]

This notice is being jointly issued by Niwas Housing Finance Private Limited (formerly known as 'IndoStar Home Finance Private Limited') ("Company"). Witkopeend B.V., ("Witkopeend"/"Proposed Investor") and IndoStar Capital Finance Limited ("ICFL"), pursuant to Paragraph 47 of Non-Banking Financial Company Housing Finance Company (Reserve Bank) Directions, 2021 dated February 17, 2021, as amended ("HFC Master Directions") read with Paragraph 42.3 of the Master Directions - RBI (Non-Banking Financia Company - Scale Based Regulation) Directions, 2023 dated October 19, 2023 as amended from time to time ("SB Master Directions") (HFC Master Direction and SB Master Directions are hereinafter collectively referred to as "RBI Master Directions") and the RBI approval vide its letters dated March 21, 2025

The Company is a non-deposit taking Housing Finance Company ("HFC" registered with the Reserve Bank of India ("RBI") in terms of its certificate o registration bearing registration no. DOR-00141 dated January 8, 2025 (issued in lieu of CoR No. 08.0141.16 dated 26 August 2016 issued by National Housing Bank under Section 29A of the National Housing Bank Act, 1987). Its registered office is at Unit No. 305, 3rd Floor, Wing 2/E, Corporate Avenue Andheri - Ghatkopar Link Road, Chakala Mumbai City, Maharashtra 400093 India. The Company is a subsidiary of ICFL.

Witkopeend is a Dutch private limited company (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) incorporated under the laws of the Netherlands. and having its registered office at Herikerbergweg 84, 1101CM Amsterdam, the

Proposed Transaction: Proposed Investor seeks to acquire the entire shareholding (i.e., 100% equity shares as on the date of this notice) of the Company held by ICFL ("Proposed Transaction"). Pursuant to the Proposed Transaction (i) ICFL will cease be the shareholder of the Company; (ii) the Proposed Investor will acquire control of the Company and (iii) the board of directors will be re-constituted. The Proposed Investor proposes to nominate 2 directors (i.e., Mr. Hemant Sharma and Mr. Vijai Mukund Kumar Raghavan) on the board of directors of the Company ("Proposed Directors"). Rationale: The Proposed Transaction will enable the Company to leverage

Proposed Investor's expertise in both the Indian and global financial services sectors, facilitating the raising of external financing, driving operational improvements, and enabling continued growth of its business in line with the Company's mission. The Proposed Investor proposes to infuse up to INR 500,00,00,000 (Indian Rupees Five Hundred Crores) into the Company by way of primary infusion of equity capital after consummation of the Proposed Transaction to support the Company's next phase of growth.

Approval; RBI, vide its letters (bearing reference nos. CO.DOR.HGG. No.S8348/27-01-024/2024-2025 and DoR.HGG.GOV.No./S 8360/18-02-052/ 2024-25) dated March 21, 2025 to the Company, has granted permission for (a) proposed acquisition by the Proposed Investor and (b) change in management due to appointment of Proposed Directors on the Board of the Company ("RBI Approval"). This is subject to compliance with conditions specified therein. RBI has also granted dispensation regarding the period of public notice under Paragraph 47.1 of the HFC Master Directions from 30 (thirty) days to

Implementation: The Proposed Transaction will be consummated after the fulfilment of various conditions, including all conditions specified under the share purchase agreement entered into between the parties and expiry of 7 (seven) days from the date of publication of the Public Notice, in accordance with paragraph 47 of the HFC Master Directions read with the RBI Approval. Accordingly, this public notice is being jointly issued by the Company, the Proposed Investor, and ICFL and is intended to provide to the public, a notice/intimation regarding the Proposed Transaction and other proposed

changes set out above. A copy of this notice will also be available on the website of the Company

https://www.niwashfc.com. Any clarifications and / or objections in this regard may be addressed to the Company, at its registered office mentioned above, within 7 (seven) days from the date of this notice, with a copy marked to its Chief Compliance Officer, Ms. Nidhi Sadani (email id: nidhi.sadani@niwashfc.com) or Company Secretary, Mr. Panth Joshi (email id: panth.joshi@niwashfc.com)

Issued By

Sd/- Authorised representative of Niwas Housing Finance Private Limited (formerly known as 'IndoStar Home Finance Private Limited')	
Sd/- Authorised representative of IndoStar Capital Finance Limited	
Date: 22 March 2025 Place: Mumbai	

NO.	REGISTERED SHARE HOLDER	CERT. NO.	DIST. FROM	DIST. TO	EQUITY
003923	AMOLAK DAS KHANDELWAL	3633	2107501	2108000	500
		903159	5830029191	5830029241	50

Cords Cable Industries Limited CORDS

Registered Office: 94,1st Floor,Shambhu Dayal Bagh Marg, Near Okhla Industrial Area Phase-III, Old Ishwar Nagar, New Delhi-110020 Tel: 011-40551200 * Fax: 011-20887232 * E-mail: ccil@cordscable.com website: www.cordscable.com * CIN: L74999DL1991PLC046092

Pursuant to the provisions of SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015 and Company's Code for prevention of Insider Trading, the Trading Window for dealing in the Securities of the Company shall remain closed from Tuesday, 01st April, 2025 for the Directors, Designated Employees, Insiders and their immediate relatives till 48 hours after the Audited Financial Results along with Auditors Report for the 4th quarter/ 12 months ended on 31st March, 2025 is made public.

Accordingly, all designated persons, Directors, promoters, persons acting in concert employees of the Company along with their respective immediate relatives, personhaving contractual and fiduciary relation with the Company including but not limited to Auditors, accountancy firm, law firms, analysts, consultants, etc., assisting or advising the Company, shall not involve in any transaction for dealing/trading in the securities of the Company during the period when Trading Window is closed

By Order of Board of Directors For Cords Cable Industries Limited

Garima Pant Company Secretary

IPL fever on, as is tax heat on online gaming

DGGI has so far blocked 166 mule accounts linked to these platforms. Three such persons have been arrested till now, and an investigation against more such individuals is under progress. Under the GST law, 'online money gaming', being actionable claim, is classified as a supply of 'goods' and is subject to a 28% tax. Entities operating in this sector are required to register under the GST.

With the upcoming IPL season, enforcement actions by tax officers will be more stringent to curb illicit gaming operations, the ministry said, urging people to engage only with regulated e-gaming platforms. The ministry said non-compliance by foreign entities distorts fair competition, harms local businesses, and skews the market. These unscrupulous foreign entities circumvent restrictions by creating new web addresses. "Investigations also revealed that these companies operated through 'mule' bank accounts to process transactions. Funds collected through mule accounts leave the potential to be funnelled into illicit activities, which may also be dangerous for the national security point of view," the ministry added. The ministry further said, "It has been observed that many Bollywood celebrities and cricketers, along with YouTube, WhatsApp, and Instagram influencers, are found endorsing these platforms, and, therefore, the public is advised to remain cautious and not engage with offshore online money gaming platforms as it may jeopardise their personal finances and indirectly support

FPIs should live with the current taxation: Sebi chief

"There are corporate disclosures (where) there are malpractices... there are blatantly false disclosures being made. We will not hesitate in taking actions against such disclosures," he said.

Sebi's surveillance system is throwing out details of the entities indulging in such wrongful disclosures, he said.

On the issue of taxation and the regime's impact on the FPI interest in the Indian markets, Pandey seemed to suggest that the investor community should not expect any change.

There is a need to look at volumes in the derivatives segment in a nuanced way, Pandey said, adding that notional interest can sometimes be misleading.

The metrics of measure-

ment have to change, and

FROM THE FRONT PAGE

Sweet & tangy summer for beer lovers "OUR MOMENTUM IN the premium category continued with

volume growth rising by 33%, bringing the YTD growth rate to 35%. There's been market share gains for the quarter, both on an overall basis as well as in the premium segment," he explained. With the growing pride in local flavours and willingness to explore premium options, Gupta sees significant growth potential for this segment. "There is also an increased interest for beers with low bitterness, making flavoured variants a preferred choice," he added. Similarly, Goa's Latam-

barcem Brewers recently announced a partnership with Taiwan's Jim and Dad's Brewing Company to produce what it claims to be India's first bottled 'tea beer', Maka di OoLong Blanche. "The idea behind our tea-infused beer was to bring together the best of two of the world's most beloved beverages — beer and tea. By balancing flavours, we have crafted a brew that offers both depth and refreshment, ensuring that neither element overpowers the other," said Aditya Ishan Varshnei, CEO of Latambarcem Brewers. "Our goal was to create an authentic, world-class beer perfect for those who appreciate sophistication in every sip while still craving a light, invigorating drinking experience," he added. It's exciting to see consumers becoming experimental and open to innovative flavours, as per Atul Kumar Singh, cofounder & MD of homegrown beer brand Lone Wolf. "The change is largely driven by a growing curiosity among consumers, especially younger ones, who value novelty and uniqueness. There's an undeniable desire to move beyond the usual and explore something unconventional," he added. Since its inception in 2022,



innovation has been meticulous and thoughtful. Its Lone Wolf Alpha variant was designed to offer a refreshing burst of citrus and coriander flavours with a lighter body, making it perfect for summer refreshment. "Each flavour development at Lone Wolf is a calculated decision, balancing consumer demand, brand identity, and innovative brewing techniques," said Singh. Today's consumers don't just drink beer, they explore it. "Food and beverage pairings have played a big role in changing how people approach beer. The rise of experiential dining and mixology culture has made people more adventurous, seeking new flavours that offer complexity and depth," said Ishwaraj Singh Bhatia, COO & co-founder of Simba Beer, a popular homegrown beer brand that has been crafting products that are bold and flavourful. Simba Stout is known for its rich, dark, and roasted malt profile with hints of coffee and chocolate. Simba Wit is a refreshing Belgian-style wheat beer with notes of orange peel and coriander, perfect for those who enjoy a smooth, citrusy brew. India's rich biodiversity of seasonal ingredients presents an exciting opportunity to craft offerings that resonate with local palates. Bengalurubased brewery Geist Brewing Co taps into this space by introducing seasonal and limited-

beer experience fresh. It has developed creations like the Geist Kala Namak Jamun Ale, which pairs the tangy, salty notes of black salt with jamun — an ingredient deeply rooted in Indian taste traditions. The Geist Cucumber Sea Salt Lager offers a crisp, refreshing profile, perfect for warm climates. "These beers go beyond introducing new flavours — they create cultural connections, making craft beer more accessible and engaging for a wider audience," said Narayan Manepally, CEO & co-founder of Geist Brewing Co, a 10,000-sq-ft brewery that produces about 200 kilo litres of beer every month. The trend of beer brands experimenting with unique ingredients is not something new. Last year, homegrown beer company Bira 91 launched'Chutney Sour', a limited-release beer inspired by the flavours of Indian street food and brewed with tamarind, a key ingredient in chutneys. In 2022, the company came out with four new flavours—'Bollywood IPA', 'Kokum Sour', 'Brown Ale', and 'Mango Lassi'. Launched under the 'Imagined in India' portfolio, the idea behind the new flavours was to "bring together the many flavours of India and its creative energy fuelled by emerging artists, entrepreneurs, and start-ups", as per Ankur Jain,

Sebi will be addressing the same in a new regulation, which it will come out with.

"We also need to change from a system where only the large, organised investors are ers are losing," he added.

disbursed under 10 PLI schemes

been paid out are to compacrore and the slow disbursetion its effectiveness.

direct and indirect employment of over 11.5 lakh. As on date, 764 applica-

making money and the retail-₹14,020 crore

The incentives that have

nies in 10 of the 14 sectors covered under the scheme. The incentives have gone to large-scale electronics manufacturing (LSEM), IT hardware, bulk drugs, medical devices, pharmaceuticals, telecom and networking products, food processing, white goods, automobiles and auto components and drones and drone components. The outlay for the scheme has been pegged at ₹1.97 lakh ment is often cited to ques-

The ministry said investment of around ₹1.61 lakh crore (\$18.72 billion) has been reported till November 2024 which has generated production/sales of around ₹14 lakh crore (around \$162.84 billion) against targets of ₹15.52 lakh crore up to FY2024-25. The companies

tions have been approved under PLI schemes in the 14 key sectors, of which 176 are MSMEs. Even in sectors like speciality steel that were considered laggard, as 14 of 58 projects withdrew from the scheme either because of change in business plans of the company and project execution delays, the activity is picking up. In the PLI scheme for specialty steel, about ₹20,000 crore of investments have been made by companies out of ₹27,106 crore committed, and these projects have given a direct employment to

9,000 persons. Incentive of ₹48 crore has been released to the industry so far. As many as 35 companies have shown interest in the second round of the PLI scheme for specialty steel. A further commitment of ₹25,200 crore investment has been committed by these companies. The ministry of steel is in the process of selection and signing MoUs with these companies. An incentive of ₹3,600 crore is estimated to be disbursed to these projects, the statement said. Listing other achievements of PLI, the ministry said under the PLI scheme for promoting domestic manufacturing of medical devices, 19 greenfield projects have been com-

under PLI have generated missioned and production of 44 products have started. Previously these products were imported into the country.

founder and CEO of Bira 91.

India's position in the global pharmaceuticals market has expanded and it is the third-largest player by volume. Exports now account for 50% of production, and the country has reduced reliance on imports by manufacturing key bulk drugs like Penicillin G. The scheme has also achieved 60% import substitution in telecom products under the PLI scheme for telecom and networking products. Global tech companies have set up manufacturing units, turning India into a major exporter of 4G and 5G telecom equipment.

Small cars become also-rans in PV race

With carmakers increasingly focusing on big SUVs, expect their share to rise further. On Thursday, Tata Motors signed actor Vicky Kaushal as the brand ambassador to promote the premium SUV Curvy, and the big launches this year include big SUVs such as Mahindra's electric SUVs, Maruti Suzuki's e-Vitara, Toyota's midsize electric SUV, and Tata's new Sierra, and not small cars.

Vinod Kumar Shukla gets 59th Jnanpith award

EMINENT HINDI WRITER Vinod Kumar Shukla was on Saturday named the recipient of the 59th Inanpith Award, India's highest literary honour. He will be the first writer from Chhattisgarh to receive the award. The 88-year-old writer, considered one of the greatest contemporary Hindi writers, is the 12th Hindi writer to receive the award.



Tender Notice dated 21.03.2025 Puniab & Sind Bank invites E-TENDER from reputed Vendor/Contractors/Service Providers for Civil, Interior furnishing, Electrical, AC & Other Allied works for Punjab & Sind Bank, Staff Training Centre at SCO 84-91, 3rd Floor, Bank Square, Sector 17 B, Chandigarh 160017. For participation please login to Bank's E-Procurement website: https://psb.eproc.in. For relevant details and to download Tender Documents please visit Bank's website https:// punjabandsindbank.co.in/module/tender-list. Last Date: 03.04.2025 upto 5:00 P.M (Field General Manager)

GENLINK PHARMA SOLUTIONS PRIVATE LIMITED

(Formerly known as Genlink Pharma Investments Private Limited) CIN: U74110MH2016PTC280765

Reg Off.: 401, 4th Floor, Kesar Solitaire, Plot No. 5, Sector 19, Sanpada, Navi Mumbai, 400705, Maharashtra, India Ph: +91 22 6750 7000 Fax: +91 22 6750 7070 Email: genlinkinfo@gmail.com Website: www.genlinkpharma.com Extract of Standalone Financial Results for the guarter ended 30th September, 2024

Particulars	Quarter ending 30/09/2024	Corresponding Quarter for the previous year ended 30/09/2023	Previous Yes Ended 31st March 2024	
	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)	
Total income from operations	54,255	1,176,899	4,707,819	
Net Profit / (Loss) for the period (before tax and/or Exceptional and/or Extraordinary items)	-1,902,834	-68,856	-2,212,946	
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	-1,902,834	-68,856	-2,212,946	
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	-1,902,834	-138,856	-2,290,342	
Total Comprehensive income for the period [comprising profit/loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)]	-1,902,834	-138,856	-2,290,342	
Paid Equity Share Capital	100,000	100,000	100,000	
Reserves (excluding Revaluation Reserve)	3,996,752	4,813,922	2,673,544	
Securities premium account				
Net Worth	4,096,752	4,913,922	2,773,544	
Paid up debt Capital/Outstanding Debt	2,000,000	23,036,583	21,676,531	
Outstanding Redeemable Debentures	250,000,000	250,000,000	250,000,000	
Debt Equity Ratio	62	56	98	
Earnings Per Share (of 10/- each) (for continuing and discontinued operations)		2270	57,00	
Basic :	(190.28)	(13.89)	(229.03)	
Diluted:	(190.28)	(13.89)	(229.03)	
Capital Redemption Reserve	1 01 21	D 000 1/00	0. 0	
Debenture Redemption Reserve	1000	1000		
Debt Service Coverage Ratio	(0.01)	0.00	(0.00)	
Interest Service Coverage Ratio	90	1.13	(0.19)	

under Regulation 52 of the LODR Regulations. The full format of the quarterly financial results is available or the websites of the Stock Exchange(s) (www.bseindia.com) and the listed entity (https://genlinkpharma.com/investor

The above results were approved by the Board of Directors at their meeting held on 21.03.2025 For the other line items referred in regulation 52 (4) of the LODR Regulations, pertinent disclosures have been made to the Bombay Stock Exchange and can be accessed on www.bseindia.com and can be accessed on Company's website (https://genlinkpharma.com/investor-relations.html) As there has been no change in accounting policies, hence no impact on net profit/ loss, total comprehensive income

In total income the Company has considered profit on sale of office premisese sold by the Company which was

offerred to tax in previous year however the profit on sale of office premises and tax thereon has been considerd in For Genlink Pharma Solutions Private Limited Sd/-Anand Shah Susheel Koul Director Managing Director Company Secretary and DIN: 00597145 DIN: 00925887

Chaitali Gawkar Compliance Officer Memb No:A69549 financialexp.epapr.in

GENLINK PHARMA SOLUTIONS PRIVATE LIMITED (Formerly known as Genlink Pharma Investments Private Limited) CIN: U74110MH2016PTC280765

Reg Off.: 401, 4th Floor, Kesar Solitaire, Plot No. 5, Sector 19, Sanpada, Navi Mumbai, 400705, Maharashtra, India. Ph: +91 22 6750 7000 Fax: +91 22 6750 7070 Email: genlinkinfo@gmail.com Website: www.genlinkpharma.com

Extract of Standalone Financial Results for the period ended 31st December, 2024

Particulars	Quarter ending 31/12/2024	Corresponding Quarter for the previous year ended 31/12/2023	Previous Year Ended 31st March 2024	
	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)	
Total income from operations	46,366	1,187,095	4,707,819	
Net Profit / (Loss) for the period (before tax and/or Exceptional and/or Extraordinary items)	-765,634	-157,869	-2,212,946	
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	-765,634	-157,869	-2,212,946	
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	-765,634	-95,265	-2,290,342	
Total Comprehensive income for the period [comprising profit/(loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)]	-765,634	-95,265	-2,290,342	
Paid Equity Share Capital	100,000	100,000	100,000	
Reserves (excluding Revaluation Reserve)	3,236,118	4,718,656	2,673,544	
Securities premium account	•	F (
Net Worth	3,336,118	4,818,656	2,773,544	
Paid up debt Capital/Outstanding Debt	2,000,000	22,306,689	21,676,531	
Outstanding Redeemable Debentures	250,000,000	250,000,000	250,000,000	
Debt Equity Ratio	75.54	56.51	98	
Earnings Per Share (of 10/- each) (for continuing and discontinued operations)	D ANDERSON	776000000	700 1170000	
Basic :	(76.56)	(9.53)	(229.03)	
Diluted:	(76.56)	(9.53)	(229.03)	
Capital Redemption Reserve		(6)		
Debenture Redemption Reserve	T www.#	300 B	7000000	
Debt Service Coverage Ratio	(0.00)	0.00	(0.00)	
Interest Service Coverage Ratio	700000	0.93	(0.19)	

The above is an extract of the detailed format of quarterly financial results filed with the Stock Exchange under Regulation 52 of the LODR Regulations. The full format of the quarterly financial results is available on the website of the Stock Exchange(s) (www.bseindia.com) and the listed entity (https://genlinkpharma.com/investor-relations.htm The above results were approved by the Board of Directors at their meeting held on 21.03.2025.

For the other line items referred in regulation 52 (4) of the LODR Regulations, pertinent disclosures have been made to the Bombay Stock Exchange and can be accessed on www.bseindia.com and can be accessed on Company's website (https://genlinkpharma.com/investor-relations.html) As there has been no change in accounting policies, hence no impact on net profit/ loss, total comprehensive income or any other relevant financial item(s).

In total income the Company has considered profit on sale of office premisese sold by the Company which was offerred to tax in previous year however the profit on sale of office premises and tax thereon has been considerd in For Genlink Pharma Solutions Private Limited Sdl Chaitali Gawkar Anand Shah Susheel Koul Director Managing Director Company Secretary and

DIN: 00925887

Compliance Officer

Memb No:A69549

Date: 21.03.2025 DIN: 00597145 Place: Navi Mumba

FE SUNDAY

JOINT ACTION COMMITTEE ON DELIMITATION

JAC for extending freeze on constituencies by 25 years

Meet an eye on '26 polls as DMK has no achievements: FM

PRESS TRUST OF INDIA Chennai, March 22

ASSERTING THAT THE proposed delimitation exercise based on population would not be "fair" to southern states, the DMK-led Joint Action Committee meeting on Saturday demanded that the Centre should extend the freeze on Parliamentary constituencies, based on the 1971 Census population, by another 25 years and decided to submit a joint representation to Prime Minister Narendra Modi during the ongoing Parliamentary session.

A political consensus also emerged to fight against "population" as the yardstick to determine delimitation and it was resolved during the meeting, which was held to ensure "fair delimitation", not to lose representation for southern states. Politically, the meeting, which was attended by three chief ministers, a deputy CM and leaders of 14 parties including the BRS, BJD and SAD from



(From left) Kerala chief minister Pinarayi Vijayan, Punjab CM Bhagwant Mann, Tamil Nadu CM MK Stalin and Telangana CM Revanth Reddy at a meeting of states over the proposed delimitation of Parliamentary seats, in Chennai on Saturday PT

six states in a show of solidarity on the issue, was a shot in the arm for Chief Minister M K Stalin and his party DMK, ahead of the Assembly election in Tamil Nadu next year.

"The upcoming or future population-based delimitation of constituencies based on the next census will greatly affect a few states. We should all be absolutely sure that delimitation based on the current popu-

lation cannot be accepted," Stalin asserted. He also said a legal option could be explored and favoured setting up an expert panel to draw up the political and legal action plan.

Addressing the meeting, Kerala Chief Minister Pinarayi Vijayan termed the proposed delimitation as a 'sword of Damocles' hanging over the states, especially in southern India, which implemented pro-

tion. He urged the Centre to engage in "meaningful dialogues"before going ahead with the process. Delimitation, if done after the Census, will lead to an increase in seats for northern states and a reduction for southern states."Such a cut in seats for the south and an increase for the north will suit the BJP as it holds greater influence in the north," he claimed. Recently, Union Home Minister Amit Shah had accused Stalin of spreading "misinformation," over the delimitation issue and assured that southern states will not lose a "single Parliamentary seat." Union Finance Minister Nirmala Sitharaman charged the DMK was raising "emotional" issues like alleged Hindi imposition and delimitation as it had nothing to showcase as its own achievements before the people during next year's Assembly polls in Tamil Nadu. The DMK, however, described the meeting as a "historic first," in the annals of independent India, involving 7 states including Tamil Nadu and 14 political parties."DMK

grammes to control the popula-

President (Stalin) is deciding national politics, the JAC resolution is causing political tremors in Delhi,"the party said.

Cash recovery: Delhi HC CJ submits report

PRESS TRUST OF INDIA New Delhi, March 22

DELHI HIGH COURT'S chief justice DK Upadhyaya has submitted a report to Chief Justice of India (CJI) Sanjiv Khanna in connection with the alleged discovery of cash from Justice Yashwant Varma's official residence. Justice Upadhyaya had commenced an in-house enquiry procedure over the incident, collecting evidence and information. He submitted his report to the CJI on Friday after talking to all the authorities concerned, including the fire department and police.

The apex court collegium will look into the report and may initiate further action.

The purported discovery of a huge stash of cash happened following a fire at Justice Varma's Lutyens' Delhi residence at around 11:35 pm on the night of Holi on March 14, prompting the fire department personnel to rush to the spot and douse the flames. In a statement on Friday, the Supreme Court said the Delhi High Court chief justice had

SHOPPING MALL AVAILABLE

FOR SALE IN PERAMBUR, CHENNAI

Spectrum mall - 60% stake [5 screens currently operated by

PVR Cinemas on lease + shopping area] along with two

vacant lands (Pallikaranai & Market Street, Perambur) and

8 residential flats are available for E-auction under IBC, 2016.

E-auction date: 23rd April, 2025

Contact Liquidator for further details:

Ph: +91 94888 10404

JOINT PUBLIC NOTICE

This notice is being jointly issued by Niwas Housing Finance Private Limited

(formerly known as 'IndoStar Home Finance Private Limited') ("Company")

Witkopeend B.V., ("Witkopeend"/"Proposed Investor") and IndoStar Capita

Finance Limited ("ICFL"), pursuant to Paragraph 47 of Non-Banking Financial Company Housing Finance Company (Reserve Bank) Directions, 2021 dated

February 17, 2021, as amended ("HFC Master Directions") read with

Paragraph 42.3 of the Master Directions - RBI (Non-Banking Financial

Company - Scale Based Regulation) Directions, 2023 dated October 19, 2023.

as amended from time to time ("SB Master Directions") (HFC Master Directions

and SB Master Directions are hereinafter collectively referred to as "RBI

Master Directions") and the RBI approval vide its letters dated March 21, 2025

The Company is a non-deposit taking Housing Finance Company ("HFC"

registered with the Reserve Bank of India ("RBI") in terms of its certificate of

registration bearing registration no. DOR-00141 dated January 8, 2025

(issued in lieu of CoR No. 08.0141.16 dated 26 August 2016 issued by Nationa

Housing Bank under Section 29A of the National Housing Bank Act, 1987), Its

registered office is at Unit No. 305, 3rd Floor, Wing 2/E, Corporate Avenue

Andheri – Ghatkopar Link Road, Chakala Mumbai City, Maharashtra 400093

Witkopeend is a Dutch private limited company (besloten vennootschap met

beperkte aansprakelijkheid) incorporated under the laws of the Netherlands.

and having its registered office at Herikerbergweg 84, 1101CM Amsterdam, the

Proposed Transaction: Proposed Investor seeks to acquire the entire

shareholding (i.e., 100% equity shares as on the date of this notice) of the

Company held by ICFL ("Proposed Transaction"). Pursuant to the Proposed

Transaction (i) ICFL will cease be the shareholder of the Company; (ii) the Proposed Investor will acquire control of the Company and (iii) the board of

directors will be re-constituted. The Proposed Investor proposes to nominate

2 directors (i.e., Mr. Hemant Sharma and Mr. Vijai Mukund Kumar Raghavan)

Rationale: The Proposed Transaction will enable the Company to leverage

Proposed Investor's expertise in both the Indian and global financial services

sectors, facilitating the raising of external financing, driving operational

improvements, and enabling continued growth of its business in line with the Company's mission. The Proposed Investor proposes to infuse up to INR

500,00,00,000 (Indian Rupees Five Hundred Crores) into the Company by way

of primary infusion of equity capital after consummation of the Proposed

Approval: RBI, vide its letters (bearing reference nos. CO.DOR.HGG

No.S8348/27-01-024/2024-2025 and DoR.HGG.GOV.No./S 8360/18-02-052/

2024-25) dated March 21, 2025 to the Company, has granted permission for (a)

proposed acquisition by the Proposed Investor and (b) change in management

due to appointment of Proposed Directors on the Board of the Company

("RBI Approval"). This is subject to compliance with conditions specified

therein. RBI has also granted dispensation regarding the period of public notice

under Paragraph 47.1 of the HFC Master Directions from 30 (thirty) days to

Implementation: The Proposed Transaction will be consummated after the

fulfilment of various conditions, including all conditions specified under the

share purchase agreement entered into between the parties and expiry of

7 (seven) days from the date of publication of the Public Notice, in accordance

with paragraph 47 of the HFC Master Directions read with the RBI Approval.

Accordingly, this public notice is being jointly issued by the Company, the

Proposed Investor, and ICFL and is intended to provide to the public, a

notice/intimation regarding the Proposed Transaction and other proposed

A copy of this notice will also be available on the website of the Company

Any clarifications and / or objections in this regard may be addressed to the

Company, at its registered office mentioned above, within 7 (seven) days from

the date of this notice, with a copy marked to its Chief Compliance Officer,

Ms. Nidhi Sadani (email id: nidhi.sadani@niwashfc.com) or Company

Authorised representative of Niwas Housing Authorised representative

Secretary, Mr. Panth Joshi (email id: panth.joshi@niwashfc.com)

Finance Private Limited (formerly known as of Witkopeend B.V.

on the board of directors of the Company ("Proposed Directors").

Transaction to support the Company's next phase of growth.

changes set out above.

Issued By

Sd/-

https://www.niwashfc.com.

India. The Company is a subsidiary of ICFL.

[Ganga Foundations Private Limited]

against Justice Varma and separately, there was a proposal to transfer the judge to the Allahabad High Court. "There is misinformation and rumours are being spread with regard to the incident at the residence of Justice Yashwant Varma," the statement said. Upon receiving the information, the apex court said Justice Upadhyaya "commenced the in-house enquiry procedure, collecting evidence and information". Justice Upadhyaya was stated to have commenced the inquiry prior to a

initiated an in-house inquiry

meeting of the apex court collegium on March 20. The Supreme Court said the proposal for transferring Justice Varma was examined by the apex court collegium comprising the CJI and the four seniormost judges on March 20 and thereafter, letters were shot off to the consultee judges of the top court and the chief justices of the high courts concerned, besides Justice Varma. "Responses received will be examined and, thereupon, the collegium will pass a resolution," the court said.

NOTICE OF LOSS OF SHARE CERTIFICATES Notice is hereby given that the following share certificates issued by ICICI BANK LTD. are stated to have been lost or misplaced and the registered share holder applied for issue of REGISTERED CERT. NO. DIST. FROM DIST. TO EQUITY SHARE HOLDER 2108000 500 3633 2107501 AMOLAK DAS

1003923 KHANDELWAL 5830029191 Any person who has/have a claim in respect of the said certificates should lodge his/her/their laim with all supporting documents with the company or Kfin Technologies Ltd, Selenium lower B, plot 31-32, Gachibowli, financial district, Hyderabad-500032. If no valid and legitimate Claim is received within 15 days from the date of publication of the notice, the company will proceed to issue duplicate share certificates to the shareholder listed above

and no further claim would be entertained from any other person(s). Date: 23.03.2025, Place: Jaipur

CA Mahalingam Suresh Kumar / gfpl.liq@gmail.com/

Cords Cable Industries Limited CORDS Registered Office: 94,1st Floor, Shambhu Dayal Bagh Marg,

Near Okhla Industrial Area Phase-III, Old Ishwar Nagar, New Delhi-110020 Tel: 011-40551200 * Fax: 011-20887232 * E-mail: ccil@cordscable.com website: www.cordscable.com * CIN: L74999DL1991PLC046092

Pursuant to the provisions of SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015 and Company's Code for prevention of Insider Trading, the Trading Window for dealing in the Securities of the Company shall remain closed from Tuesday, 01st April, 2025 for the Directors, Designated Employees, Insiders and their immediate relatives till 48 hours after the Audited Financial Results along with Auditors Report for the 4th quarter/ 12 months ended on 31st March, 2025 is made public.

Accordingly, all designated persons, Directors, promoters, persons acting in concert employees of the Company along with their respective immediate relatives, persons having contractual and fiduciary relation with the Company including but not limited to Auditors, accountancy firm, law firms, analysts, consultants, etc., assisting or advising the Company, shall not involve in any transaction for dealing/trading in the securities of the Company during the period when Trading Window is closed

> By Order of Board of Directors For Cords Cable Industries Limited

Date: March 22, 2025

or any other relevant financial item(s).

Date: 21.03.2025

Garima Pant Company Secretary

online gaming DGGI has so far blocked 166 mule accounts linked to

IPL fever on,

as is tax

heat on

these platforms. Three such persons have been arrested till now, and an investigation against more such individuals is under progress. Under the GST law, 'online money gaming', being actionable claim, is classified as a supply of 'goods' and is subject to a 28% tax. Entities operating in this sector are required to register under the GST.

With the upcoming IPL season, enforcement actions by tax officers will be more stringent to curb illicit gaming operations, the ministry said, urging people to engage only with regulated e-gaming platforms. The ministry said non-compliance by foreign entities distorts fair competition, harms local businesses, and skews the market. These unscrupulous foreign entities circumvent restrictions by creating new web addresses. "Investigations also revealed that these companies operated through 'mule' bank accounts to process transactions. Funds collected through mule accounts leave the potential to be funnelled into illicit activities, which may also be dangerous for the national security point of view," the ministry added. The ministry further said, "It has been observed that many Bollywood celebrities and cricketers, along with YouTube, WhatsApp, and Instagram influencers, are found endorsing these platforms, and, therefore, the public is advised to remain cautious and not engage with offshore online money gaming platforms as Sebi will be addressing the same in a new regulation, it may jeopardise their which it will come out with. personal finances and indirectly support from a system where only the activities that undermine

FPIs should live with the current taxation: Sebi chief

financial integrity and

national security".

"There are corporate disclosures (where) there are malpractices... there are blatantly false disclosures being made. We will not hesitate in taking actions against such disclosures," he said.

Sebi's surveillance system is throwing out details of the entities indulging in such wrongful disclosures, he said.

On the issue of taxation and the regime's impact on the FPI interest in the Indian markets, Pandey seemed to suggest that the investor community should not expect any change.

There is a need to look at volumes in the derivatives segment in a nuanced way, Pandey said, adding that notional interest can sometimes be misleading.

The metrics of measure-

ment have to change, and

FROM THE FRONT PAGE

Sweet & tangy summer for beer lovers "OUR MOMENTUM IN the premium category continued with

volume growth rising by 33%, bringing the YTD growth rate to 35%. There's been market share gains for the quarter, both on an overall basis as well as in the premium segment," he explained. With the growing pride in local flavours and willingness to explore premium options, Gupta sees significant growth potential for this segment. "There is also an increased interest for beers with low bitterness, making flavoured variants a preferred choice," he added. Similarly, Goa's Latam-

barcem Brewers recently announced a partnership with Taiwan's Jim and Dad's Brewing Company to produce what it claims to be India's first bottled 'tea beer', Maka di OoLong Blanche. "The idea behind our tea-infused beer was to bring together the best of two of the world's most beloved beverages — beer and tea. By balancing flavours, we have crafted a brew that offers both depth and refreshment, ensuring that neither element overpowers the other," said Aditya Ishan Varshnei, CEO of Latambarcem Brewers. "Our goal was to create an authentic, world-class beer perfect for those who appreciate sophistication in every sip while still craving a light, invigorating drinking experience," he added. It's exciting to see consumers becoming experimental and open to innovative flavours, as per Atul Kumar Singh, cofounder & MD of homegrown beer brand Lone Wolf. "The change is largely driven by a growing curiosity among consumers, especially younger ones, who value novelty and uniqueness. There's an undeniable desire to move beyond the usual and explore something unconventional," he added. Since its inception in 2022,



Lone Wolf's approach to flavour innovation has been meticulous and thoughtful. Its Lone Wolf Alpha variant was designed to offer a refreshing burst of citrus and coriander flavours with a lighter body, making it perfect for summer refreshment. "Each flavour development at Lone Wolf is a calculated decision, balancing consumer demand, brand identity, and innovative brewing techniques," said Singh. Today's consumers don't just drink beer, they explore it. "Food and beverage pairings have played a big role in changing how people approach beer. The rise of experiential dining and mixology culture has made people more adventurous, seeking new flavours that offer complexity and depth," said Ishwaraj Singh Bhatia, COO & co-founder of Simba Beer, a popular homegrown beer brand that has been crafting products that are bold and flavourful. Simba Stout is known for its rich, dark, and roasted malt profile with hints of coffee and chocolate. Simba Wit is a refreshing Belgian-style wheat beer with notes of orange peel and coriander, perfect for those who enjoy a smooth, citrusy brew. India's rich biodiversity of seasonal ingredients presents an exciting opportunity to craft offerings that resonate with local palates. Bengalurubased brewery Geist Brewing Co taps into this space by introducing seasonal and limited-

beer experience fresh. It has developed creations like the Geist Kala Namak Jamun Ale, which pairs the tangy, salty notes of black salt with jamun — an ingredient deeply rooted in Indian taste traditions. The Geist Cucumber Sea Salt Lager offers a crisp, refreshing profile, perfect for warm climates. "These beers go beyond introducing new flavours — they create cultural connections, making craft beer more accessible and engaging for a wider audience," said Narayan Manepally, CEO & co-founder of Geist Brewing Co, a 10,000-sq-ft brewery that produces about 200 kilo litres of beer every month. The trend of beer brands experimenting with unique ingredients is not something new. Last year, homegrown beer company Bira 91 launched'Chutney Sour', a limited-release beer inspired by the flavours of Indian street food and brewed with tamarind, a key ingredient in chutneys. In 2022, the company came out with four new flavours — 'Bollywood IPA', 'Kokum Sour', 'Brown Ale', and 'Mango Lassi'. Launched under the 'Imagined in India' portfolio, the idea behind the new flavours was to "bring together the many flavours of India and its creative energy fuelled by emerging artists, entrepreneurs, and start-ups", as per Ankur Jain,

under PLI have generated direct and indirect employment of over 11.5 lakh.

large, organised investors are making money and the retailers are losing," he added. ₹14,020 crore disbursed

The incentives that have been paid out are to companies in 10 of the 14 sectors The incentives have gone to large-scale electronics manufacturing (LSEM), IT hardware, bulk drugs, medical devices, pharmaceuticals, telecom and networking products, food processing, white goods, automobiles and auto components and drones and drone components. The outlay for the scheme has been pegged at ₹1.97 lakh crore and the slow disburse-

ment of around ₹1.61 lakh crore (\$18.72 billion) has been reported till November 2024 which has generated production/sales of around ₹14 lakh crore (around \$162.84 billion) against targets of ₹15.52 lakh crore up to FY2024-25. The companies

Particulars

Net Profit / (Loss) for the period (before tax and/or

Total Comprehensive income for the period [comprising

Exceptional and/or Extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period before tax

Net Profit / (Loss) for the period after tax

comprehensive income (after tax)

Paid Equity Share Capital

Debt Equity Ratio

Securities premium account

(after Exceptional and/or Extraordinary items

(after Exceptional and/or Extraordinary items)

profit/(loss) for the period (after tax) and other

Reserves (excluding Revaluation Reserve)

Paid up debt Capital/Outstanding Debt

Outstanding Redeemable Debentures

Earnings Per Share (of 10/- each)

Capital Redemption Reserve

Debt Service Coverage Ratio

Debenture Redemption Reserve

nterest Service Coverage Ratio

or any other relevant financial item(s)

Total income from operations

As on date, 764 applica-

under 10 PLI schemes

"We also need to change

covered under the scheme. ment is often cited to question its effectiveness.

The ministry said invest-

GENLINK PHARMA SOLUTIONS PRIVATE LIMITED

(Formerly known as Genlink Pharma Investments Private Limited)

CIN: U74110MH2016PTC280765

Reg Off.: 401, 4th Floor, Kesar Solitaire, Plot No. 5, Sector 19, Sanpada, Navi Mumbai, 400705, Maharashtra, India.

Ph: +91 22 6750 7000 Fax: +91 22 6750 7070 Email: genlinkinfo@gmail.com Website: www.genlinkpharma.com

Quarter

ending

31/12/2024

(Unaudited)

46,366

-765,634

-765,634

-765;634

-765,634

3,236,118

3 338 118

2,000,000

(76.56)

(76.56)

(0.00)

250,000,000

Extract of Standalone Financial Results for the period ended 31st December, 2024

tions have been approved under PLI schemes in the 14 key sectors, of which 176 are MSMEs. Even in sectors like speciality steel that were considered laggard, as 14 of 58 projects withdrew from the scheme either because of change in business plans of the company and project execution delays, the activity is picking up. In the PLI scheme for specialty steel, about ₹20,000 crore of investments have been made by companies out of ₹27,106 crore committed, and these projects have given a direct employment to

9,000 persons. Incentive of ₹48 crore has been released to the industry so far. As many as 35 companies have shown interest in the second round of the PLI scheme for specialty steel. A further commitment of ₹25,200 crore investment has been committed by these companies. The ministry of steel is in the process of selection and signing MoUs with these companies. An incentive of ₹3,600 crore is estimated to be disbursed to these projects, the statement said. Listing other achievements of PLI, the ministry said under the PLI scheme for promoting domestic manufacturing of medical devices, 19 greenfield projects have been com-

Quarter for the

nded 31/12/2023

(Unaudited)

1,187,095

-157,869

-157,869

-95,265

-95,265

100,000

4,718,656

4 818 656

22,306,689

58.51

(9.53)

(9.53)

0.00

0.93

250.000,000

previous year

Previous Year

Ended 31st

March 2024

(Audited)

4,707,819

-2,212,946

-2,212,946

-2.290.342

-2,290,342

100,000

2,673,544

21,676,531

(229.03)

(229.03)

(0.19)

250,000,000

missioned and production of 44 products have started. Previously these products were imported into the country.

founder and CEO of Bira 91.

India's position in the global pharmaceuticals market has expanded and it is the third-largest player by volume. Exports now account for 50% of production, and the country has reduced reliance on imports by manufacturing key bulk drugs like Penicillin G. The scheme has also achieved 60% import substitution in telecom products under the PLI scheme for telecom and networking products. Global tech companies have set up manufacturing units, turning India into a major exporter of 4G and 5G telecom equipment.

Small cars become also-rans in PV race

With carmakers increasingly focusing on big SUVs, expect their share to rise further. On Thursday, Tata Motors signed actor Vicky Kaushal as the brand ambassador to promote the premium SUV Curvy, and the big launches this year include big SUVs such as Mahindra's electric SUVs, Maruti Suzuki's e-Vitara, Toyota's midsize electric SUV, and Tata's new Sierra, and not small cars.

Vinod Kumar Shukla gets 59th Jnanpith award

EMINENT HINDI WRITER Vinod Kumar Shukla was on Saturday named the recipient of the 59th Inanpith Award, India's highest literary honour. He will be the first writer from Chhattisgarh to receive the award. The 88-year-old writer, considered one of the greatest contemporary Hindi writers, is the 12th Hindi writer to receive the award.

PUNJAB & SIND BANK (A Government of India Undertaking) ZONAL OFFICE: CHANDIGARH SCO 84-91, First Floor, Bank Square

Tender Notice dated 21.03.2025 Puniab & Sind Bank invites E-TENDER from reputed Vendor/Contractors/Service Providers for Civil, Interior furnishing, Electrical, AC & Other Allied works for Punjab & Sind Bank, Staff Training Centre at SCO 84-91, 3rd Floor, Bank Square, Sector 17 B, Chandigarh 160017. For participation please login to Bank's E-Procurement website: https://psb.eproc.in. For relevant details and to download Tender Documents please visit Bank's website https:// punjabandsindbank.co.in/module/tender-list. Last Date: 03.04.2025 upto 5:00 P.M

GENLINK PHARMA SOLUTIONS PRIVATE LIMITED

(Formerly known as Genlink Pharma Investments Private Limited) CIN: U74110MH2016PTC280765

Reg Off.: 401, 4th Floor, Kesar Solitaire, Plot No. 5, Sector 19, Sanpada, Navi Mumbai, 400705, Maharashtra, India Ph: +91 22 6750 7000 Fax: +91 22 6750 7070 Email: genlinkinfo@gmail.com Website: www.genlinkpharma.com Extract of Standalone Financial Results for the quarter ended 30th September, 2024

Particulars	Quarter ending 30/09/2024	Corresponding Quarter for the previous year ended 30/09/2023	Previous Year Ended 31st March 2024 (Audited)	
	(Unaudited)	(Unaudited)		
Total income from operations	54,255	1,176,899	4,707,819	
Net Profit / (Loss) for the period (before tax and/or Exceptional and/or Extraordinary items)	-1,902,834	-68,856	-2,212,946	
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	-1,902,834	-68,856	-2,212,946	
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	-1,902,834	-138,856	-2,290,342	
Total Comprehensive income for the period [comprising profit/loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)]	-1,902,834	-138,856	-2,290,342	
Paid Equity Share Capital	100,000	100,000	100,000	
Reserves (excluding Revaluation Reserve)	3,996,752	4,813,922	2,673,544	
Securities premium account	- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	- 2000		
Net Worth	4,096,752	4.913,922	2,773,544	
Paid up debt Capital/Outstanding Debt	2,000,000	23,036,583	21,676,531	
Outstanding Redeemable Debentures	250,000,000	250,000,000	250,000,000	
Debt Equity Ratio	62	56	96	
Earnings Per Share (of 10/- each) (for continuing and discontinued operations)		550.00	55000	
Basic :	(190.28)	(13.89)	(229.03)	
Diluted:	(190.28)	(13.89)	(229.03)	
Capital Redemption Reserve			100 20	
Debenture Redemption Reserve	- C.	2000	100 m	
Debt Service Coverage Ratio	(0.01)	0.00	(0.00)	
Interest Service Coverage Ratio	- 50	1.13	(0.19)	

under Regulation 52 of the LODR Regulations. The full format of the quarterly financial results is available of the websites of the Stock Exchange(s) (www.bseindia.com) and the listed entity (https://genlinkpharma.com/investor

The above results were approved by the Board of Directors at their meeting held on 21.03.2025 For the other line items referred in regulation 52 (4) of the LODR Regulations, pertinent disclosures have been made to the Bombay Stock Exchange and can be accessed on www.bseindia.com and can be accessed on Company's website (https://genlinkpharma.com/investor-relations.html) As there has been no change in accounting policies, hence no impact on net profit/ loss, total comprehensive incom-

In total income the Company has considered profit on sale of office premisese sold by the Company which was offerred to tax in previous year however the profit on sale of office premises and tax thereon has been considerd in For Genlink Pharma Solutions Private Limited Sd/-Anand Shah Susheel Koul Director Managing Director Company Secretary and

DIN: 00597145

DIN: 00925887

financialexp.epapr.in

Chaitali Gawkar Compliance Officer Memb No:A69549

Date: 21.03.2025 DIN: 00597145 Place: Navi Mumba

DIN: 00925887

New Delhi

Regulation 52 of the LODR Regulations. The full format of the quarterly financial results is available on the website

The above results were approved by the Board of Directors at their meeting held on 21.03.2025.

Sd/-Anand Shah Susheel Koul Chaitali Gawkar Director Managing Director Company Secretary and Compliance Officer Memb No:A69549

For Genlink Pharma Solutions Private Limited

(0.00) Sector 17B, Chandigarh-160017 Ph.: 8920571436, E-Mail: zo.chandigarh@psb.co.in (a) The above is an extract of the detailed format of quarterly financial results filed with the Stock Exchange under of the Stock Exchange(s) (www.bseindia.com) and the listed entity (https://genlinkpharma.com/investor-relations.htm For the other line items referred in regulation 52 (4) of the LODR Regulations, pertinent disclosures have been made to the Bombay Stock Exchange and can be accessed on www.bseindia.com and can be accessed on Company's As there has been no change in accounting policies, hence no impact on net profit/ loss, total comprehensive income In total income the Company has considered profit on sale of office premisese sold by the Company which was offerred to tax in previous year however the profit on sale of office premises and tax thereon has been considerd in

(Field General Manager)

'IndoStar Home Finance Private Limited') Authorised representative of IndoStar Capital Finance Limited Date: 22 March 2025 Place: Mumbai